# **KDDL** Limited

Kamla Centre, SCO 88-89, Sector 8-C, Chandigarh - 160 009, INDIA. Tel: +91 172 2548223/24, 2544378/79 Fax: +91 172 2548302, Website:www.kddl.com; CIN-L33302HP1981PLC008123



# Ref: KDDL/CS/2023-24/94

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra, Mumbai - 400 051

**Trading Symbol : KDDL** 

Date: 19<sup>th</sup> February, 2024

BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001

# Scrip Code : 532054

## Subject: Newspaper Publication – Financial Results

Dear Sir/ Madam,

Please find enclosed copy of newspaper publication for Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December, 2023.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly

For KDDL Limited

Brahm Prakash Kumar Company Secretary

#### **FINANCIAL EXPRESS**

#### যুকা বঁক 👩 UCO BANK

Development of the second seco lease refer to the advertisement of "E-Auction Sale Notice" for Sale nmovable Properties under SARFAESI Act 2002 on 06/03/2024 betwei 00 PM to 05:00 PM of SI. No.2, Patel Nagar Branch, Name of Borrowe IS. AMAN TRADING CORPORATION PROP. RAN MEHRA published S. AMAN TRADING CORPORATION PROP. RAIN METRA is newspaper on 26.01.2024. The "E-Auction Sale Notice" ( ading Corporation Prop. Rani Mehra stands withdrawn/ can avoidable circumstances by Authorized Officer of UCO Ba ction Sale Notice" of M/s Am Authorised Officer, UCO BAN

# PUBLIC NOTICE

	RELEVAN	AT PARTICULARS
t,	Name of Debtor/Personal Guarantor	KALARITHARA MICHAEL SEBASTINE
2	Address of the DebtonPersonal Galeranter	<ul> <li>(i) 5:425. 1st Floor, Greater Kataan, Part-B. Nave Dahi-110348</li> <li>(ii) Plot No. 344, Development Plot, South Rakinessery, Cochin, Kersta-833104</li> </ul>
1	Details of order admitting the application	(E)-492/ND(2022
4.	Particulars of the Resolution Professional with whom claims are to be registered	Mr. Prabhat Ranjan Singh Regn. No.: IBBI/PA-0021P-N00428/2017-2018/11239
\$	Address and e-mail of the Resolution Professional, as registered with the Board	Chamber No. 119, G.K. Dephany Block, Supreme Court Of India. Talk Lane. New Dahl, National Capital Tentory of Dahl-110001 Enail: pathat is attocate[Dgmail.com
6	Address and e-mail to be used for correspondence with the Resolution Professional	Resurgent Resolution Professionals LLP (IPE) 905(98) Floot, Tower-C. United: Business Zone, The Dose South. Sector 50, Guugnam, Haryane-122018 Email: knisosatine.ptpp@gmail.com
T,	Last date for submission of claims	04.03.2624
8.	Relevant Forces in which claim to be field available at	"FORM B" Web link: https://www.bbi.gox/inflome/downloads
の品は新聞	mmancement of a Personal Inscivency Re larantor of Wis Schifflies India Limited) 102.2024) e-crestors of K.N. Sebastine & Ann Person	pany Law Tribund, New Dahi Bench-II, bas ordead br unition Process gapmat Mr. K.M. Sobastine (Personal on 31.81.2004, (Copy of the order modeled by RP or nal Guarantor of We Schifflies India Limited) are hereby or before 94.03.2024 to the Resolution Professional at the

#### sion of false or misleading proofs of claim shall attract penalties Prabhat Ranjan Singh Regn. Num Partner

Recognitio Date : 15.02.2024 Place New Date

	I-E, Delhi-110091
CURRI	HENDUM
	nelety nichmet stal in
	LENOTICE FOR SALE
	PERTIES published on
	0.02.2024 in English
	UAL EXPRESS" (Page
	8 in Hindi Newspaper-
	13) & (Page No. 19) at
	9& LotNo.1 (in Losn A/C
	please read Sh. Bjender
	through its legal heirs
	ad of Sh. Bijender Singh
	E-auction process to be
	5. 01.03.2024. Rest of
-auction notice remain	
	rrigendum published on
5.02.2024, has been	cancelled by the bask.
	Authorised Officer
Date: 15.02.2024	Punjab National Bank

Mancalegopos.com

inancialexp.epapr.in





### TYPE OF PO38ESBON RESERVE PRICE DATE OF AUCTION PO38ESBON BLO BLO NCREMENT Rs. 1,16,20,000-06.03,2024 AMOUNT DUE TO INDIAN OVERSEAS BANK DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY NAMES OF GUARANTORS KNOWN ENCUMBRANCES 1,44,74,105.30 "With Justia Rs. 11,62,000/-95.03.2024 PHYSICAL Rs. 50,000/ Mr. 5 Sathesik Ph.: 491 893407 Place : New Delhi

SHASHANK TRADERS LIMITED

CIN:L52110DL1985PLC021076 Regd. Off. 702-A, ARUNACHAL BULDING, 19, BARAKHAMBA ROAD, CONNAUGHT PLACE. NeW DELHI -110001, Phone:01143571047; Fax: 01143571047, Website:www.shabahankinto.in. Email: info@babahankinfo.in

EXTRACT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 <sup>67</sup> DECEMBER, 2023 (R. In Leo

SL

Particulars

Net Profit / (Loss)for the period(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary terns) Net Profit / (Loss)for the period before Tax(after Exceptional and or Extraordinary terns)

Net Profit / (Loss) for the peri after Tax (after Exceptional and Extractional Jones) d Comprehensive income it period [Comprising Profit cs] for the period (after tai

Earnings Per Share (of Ra 10/- each) (for continuing an

Date: 16-02-2024 Place: New Delhi

ial Mr

tor Tanks

of the detailed to me mber 31, 2023 filed to methy Regulation

the 2 BSE under Re 15. The full for

NORTHERN RAILWAY

on behalf of the Board of Dir Shashank Traders Limited Praveen Jaswant Rai Jain Managing Director DIN: 01775424

on. New Delhi invites e-Auctio

(1 Lots) Delhi (1 Lot)

(4 Lots), Palwal, Balabhgarh, Fankabad New Town = (Total 7 Lots) Haznri Noramudin, Bara Square, Sarojri Nagar, Sardar Patel Marg (At Dobi Ansa)-4 Lots Dehi, Dehi Saral Rohila - 2 Lots

Start: 05.03.2024 at 10.00 hm, https://weps.gov.in.(E-Auction-Leasing) sugh E-Auction Leasing module of IREPS should ful https://weps.gov.in.(E-Auction-Leasing)

e's Office, Commercial Branch, State Entry Ro

Auction Leasing module in IREPS for E-Auction Le

OPERTIES rement) Rules

Location/Station Over Delhi Division Network = (17 Lots

Meanut Section = ( Dishi-(3 Lots), New De Anand Vihar Termina

Quarter Quarter Nine months ended ended eaded 31,12.2023 31.12.2023 31.12.2023 Un-Audited (Un-Audited) (Un-Audited)

31.03.2023 (Audited)

Regd. Office: Tel.: Website: www STATEMENT O THE QUARTER AN	(CIN Plot No. 3 +91 172 v.kddl.co	: L33302HP , Sector - III, 1 2548223 / 24 m ; Email JDITED FII	Parwanoo Fax : id: inves NANCIA ENDED	008123) Distt. Sol +91 172 : tor.comp L RESU 31 DEC	an (H.P.) - 173 2548302 Jaints@kdd LTS FOR EMBER 20	l.com )23
		Standalone	(Rs.	in Lakhs ei	ccept earnings Consolidated	
Particulars (Refer notes below)	Quarter ended 31 December 2023	Corresponding Quarter ended 31 December 2022	Year to date figures for the current period ending 31 December 2023	ended	Consolidated Corresponding Quarter ended 31 December 2022	
	(Unsudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unsudited)	(Unaudited)
lotal income from operations	8535	7929	27085	37966	31704	106284
let Profit/(Loss) for the period rom ordinary activities (before ax, exceptional items and/or intraordinary/items)	1764	1560	5822	5037	4185	13925
4et Profiti(Loss) for the period rom ontinary activities before ax (after exceptional items and/or actaordinary/items)	1764	1560	5822	5037	4185	13925
let Profit/Loss) for the period rom ordinary activities after tax after exceptional items and/or actaordinary/tems)	1315	1164	4345	3710	3087	10263
otal Comprehensive Income / Loss) for the period [comprising rofit for the period (after tax) and their comprehensive. Income after tax)]	1315	1164	4247	3847	3115	10296
Paid-up equity share capital (Face salue in Rs 10 per share)	1254	1274	1254	1254	1274	1254
amings per share (of Rs 10)-						

KDDI LIMITED

9.13

34.66 34.66 20.64

20.64

17.92

61.50 61.50

10.49

Sted with the BSE and National Stock Exchange. base is the extinct of the detailed format of the Unaudted quarterly financial Results field with the Stock Exc asker 33 of the SEBI (Juding Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Prinnicial Fuelds are available on the websites of the Stock Exchanges L. www.beeindia.com and sww.rste.in oni ar For and on the behalf of Board of Directors Yashovardhan Saboo (Chairman and Managing Director) DIN-00012155

Place: Gurugram Date: 14 February 2024

(a) Basic (Rs) (b) Diuted (Rs)

# DEBOCK INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 51, Lohiya Colony, 200 Feet Bye-Pass, Vaishali Nagar, Jaipur-302021, CIN: L52190RJ2008PLC027160 Telephone: +91.799999975, E-Mail: info@debockgroup.com , Website: www.debockgroup.com Statement of Un-audited Financial Results for the Quarter and

nine months ended 31st December, 2023
---------------------------------------

					Rs.in Lakhs e			
St.	Particulars	the second second	Quarter		Nine Mon	Year Ended		
No.		12/31/2023 Un-audited	9/30/2023 Un-audited	12/31/2022 Un-audited	12/31/2023 Un-audited	12/31/2022 Un-audited	3/31/2023 Audited	
1	Revenue from operations	2308.83	3003.73	4716.50	8127.55	12918.94	14540.96	
2	Profit / (Loss) before exceptional and extra-ordinary item and tax	44.56	219.16	1418.79	588.88	3147.61	1735.29	
3	Profit / (Loss) before extra-ordinary item and tax	44.56	219.16	1418.79	588.88	3147.51	1735.29	
4	Profit / (Loss) before tax	44.56	219.16	1418.79	1101.83	3147.61	1735.29	
5	Profit / (Loss) for the year	31.86	161.65	1061.19	818.81	2353.77	1286.59	
6	Total Comprehensive Income for the Period (Comprimising profit for the period and other comprehensive income)	32.15	161.94	1061.31	819.68	2354.13	1287.75	
7	Paid up equity share capital (Face value por share. Rs. 10)	10916.47	10916.47	7644.00	10916.47	7644.00	7544.00	
8	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (not annualised for quarters): Basic/Diluted	0.04	0.82	1.48	0.89	3.28	1.68	

Notes: 1. Developed by the Board of Director of the company at Its meeting held on 14th Fehruny 2024. 2. The Company has propared the fibracial results are perifolar Accounting Standardh (ble AS) specified under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standardh (ble AS) specified under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standardh (ble AS) specified under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standardh (ble AS) specified under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standardh (ble AS) to an ended. 3. The Company does not have more than one reportable signment in terms of Ind AS 108 and hence segment wise report ing in not applicable. 4. As pet he Rule 3 of Companies (Accounts) Rules, 2014, the Ministry of Corporate Affairs has inserted following amend-mends: Provide that for the financial year commencing on or after the stady of April 2021, every Company which uses accounting software for maintaining its books of account, shall use only such accounting software which has a feature of the stady inclusion of each darge very transaction, carefing an edit log of each change made in books of account along with the date when such changes were made and ensuring that the audit trait cannot be disabled. However, the Company

with the date when such changes were made and ensuring that the audit trail cannot be disabled. Howeve has not implemented the same in it accounting software and are in process for implementation. 5. The figures for the previous period have been restated / regrouped / reclassified, wherever necessary, in

them comparable. 6. On July 13th, 2023, the Company allotted 3.27,24,687 equity shares under Right issue at a price of Rs. 15 per share (including premium of Rs. 5 per share). However due to non-wouldbillty of data basis and dilluted EPS for all periods pre-sented have not been retrospectively adjusted for the bonus element in right issue. The basid and dilluted EPS has been raciculated on weighted average mumber of share basis.

New Delhi

----

For and on behalf of the Board of Directors DEBOCK INDUSTRIES LIMITED

sd/-Mukesh Manweer Singh Managing Director DIN: 01765408 Date: February 14th, 2024

15.02 2024 Authorised Officer, Indian Overseas Ban Punjab national bank Zonal SASTRA Centre, 1st Floor, Bhikhaji Cama Place, पंजाब नेशनल बेंक D UNDERTAKUNG) ... the name you can BANK upon! New Delhi -110066, e-mail id: zs8343@pnb.co.in SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enfor nti Rules 2002 s hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guaranton(s) that the bold on "As is where is", "As is what is", and "Whataver there is " on the data as mentioned in the table he The reserve price and the ex SCHEDULE OF SALE OF THE SECURED ASSETS Date of Demand Notice U/s 13(2) of Sarfesi Act 2002 Amount as per Demand Notice Name of the Branch Name & Contact No of Authorize Officer/ nodal Office RESERVE PRICE DATE! TIME OF E-AUCTION known to the Name of the Account Description of Immovable Properties EMD (Last date of deposit EMD) Sr. No. Possession Date uis 13(4) of Sarfeasi Act 2002 Name and Addresses of the Nature of Possession Symbolic / Physical/Constructive Bid Increase Amount Borrower/Guarantors Account Physical Constructive
 Physical Cons Rs 55.00 Crores Rs. 5.50 Crores [86.03.2024] Rs. 1,00,000/-Sanjeev Srivastava Mobile no-8130456352 PNB-Zonal SASTRA Cente Delhi Mis. Oğus Fidelity Healthcare Pvt. Ltd., 707 Kalash Buildin, 26, Kastarba Gandhi Marg Connaugit Place, New Delhi 110601 07-03-2024 11:00 AM to 04:00 PM Also at: B-2 Jungpura Extension New Delhi-1100 Guaranter) Mr. Harvansh P Chawla Slo Sh. K R Physical BRIEF TERMS AND CONDITIONS OF E-AUCTION SALE: The sole shall be subject to the Terms & Conditions po WMATEVER THERE IS BASIS". (2) The porticulars of Secured Assams opcified in the Schedule herein above state auction platform provided at the Wabsle https://www.mstcecommarce.com on date and time of auction specified at being sold on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS statement or omassion in this proclamation. (3) The sale AT IS BASIS" # merce.com, https://eprocure.gov.in/epublis www.ibapi.in.www STATUTORY SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002 AUTHORIZED OFFICER, PUNJAB NATIONAL BANK Date: 16-02-2024, Place : New Delhi

----

37

FRIDAY, FEBRUARY 16, 2024

V3 E

|  |  |  |   
  |  
   
  |   |  
   
   |  |  |   
  |  |  | ) जत   | ासत  | 1  
   | 16   | फरवरी,   
   |   | 13   |
|--|--|--
--
--
--
---|---
--
--
--|--|--
--|--|--|--
--|--
--|---|--|
| टाइमार लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड<br>CIN-L74399DL2000FLC105817<br>पंजी, कार्यात्म्य, डी-114, जोलाण डॉन्ट्रिक्स प्ररंथ, फ्रेंज-1, सं  | 2998-110020  |  | ۹   
  | (सीज<br>कार्यालय : 136 के  
   
  | साईएन : L151  |  
   
   | LC032362   |  |   
  |  | Γ  | • CIN : L74899DL1995PLC054005 • Regd. OH<br>• Ph. No. : +91 It-4561 3885; * E-Mail ID :r   | A PF   | PAR<br>Basement, S   
   | ELS<br>hivaji Enclar   | 5 LI   
   | MIT<br>ien, New De  | ED   |
| . हेली: an-azasnn, केवल: an-azasnn, वेवलाहेट: www.tig<br>इंगिल: csvishalijetigerlegiistics.in<br>प्रेयट सैलेंट का परियास   | cerlogistics.in,   | AN   | वि वेगस्त   
  | 2028 201 GUID  
   
  | ods.com, ‡-   | मेल आईबी :   
   
   | ansagro.lii  | mited/# gm   | ail.com   
  |  | 6  | Statement of Unaudited Standalone  | tesuit for   | the Quart  
   | er / Perio<br>Durterinted  | Concled 3<br>(Cin Lai  
   | 1 <sup>14</sup> Decem<br>th except as a<br>Nine Nanth Ende  | boy 2025<br>Inted otherwise<br>of TearEnted  |
| पोस्टल बैलॅंट की सूचना में मद से. 1 एवं 2 में निर्दिष्ठ विशेष व्यय<br>को सदस्यों हारा वांछित बहुमत के साथ यिपियत रूप से स्वीकृत कर   |  |  | <del>ल</del> - 631400(मीएलई)  
  |  
   
  |   | 1410   
   
   | 13-uil   |  | समय से नस   
  | (इ. लाख में)<br>कारक क   |  | Re Particulars   |  | (Do-Audite   
   | ()(In Axind)   | to Audited (So-  
   | Audited Un Au   | 222 31.03.2823<br>(hulitud)  |
| बैलॅंट से संबंधित आवश्यक विवरण इस प्रकार है:<br>क्रम म   | विख्यम   | ्म<br>परि  | श्वतनी से युत्त आप  
  | दिवरण<br>  
   
  |   |  
   
   | refilin adm  | 2202 313<br>m4567 with<br>0.53   | 1.87 1.5  
  | हित लेखगररीहित   |  | Net sales / locome from operations<br>Other locome   |  | 433.8<br>1<br>Fotal 434.0  
   | 8 124.16<br>2 0.30<br>9 124.46   | +  
   | 17.36 44<br>48 2<br>17.84 46  | 5.10 568.63<br>1.65 22.15<br>7.75 510.78   |
|  | 0.02.2024<br>361<br>ar Record & area   |  | 펫)  
  | हामि) (कर एवं अस्पत  
   
  | 1   | card - 1   
   
   | 2003a V  |  | 8.79 -83.2  
  | es attantes  |  | 2 Expenses<br>a) Parchase of Stock in Trade<br>b) diversion() Decrease in memories of traded poc   | 5  | 407.8  
   | 3 103.71<br>3 9.52   |  
   | 150.99 23<br>21.12 12   |  |
| कि बोस्टल बेलेंट के परिणामी के लिपन में जिस्तून विवास प्राप्त करने के 5<br>www.tigenlogistics.in इन्य वीरसई की पेच्याईट www.bscindia.com देखें   | लये कम्पनी की पंत्रावई<br>।  | z III m  | ज्यमंत)   
  | ा लाग (हान) (सम्पत्<br>के उपसंत जयपि हेत   
   
  |   | -23.53 -   
   
   | 21.96  | 25.56 4  | 8.79 -83.2  
  | 29 (143.07)  |  | c) Employee benefit expenses     d) Depreciation & amerizations expenses     e) Filamce Costs     o Filamce Costs  |  | 2.4<br>.8<br>.6<br>.157  
   | 5 1.87<br>0 0.80<br>8 2.40   | 2.22<br>0.87<br>0.81   
   | 6.48 1<br>2.37 1<br>4.15 1<br>34.14 4   | 1.71 13.42<br>2.74 3.85<br>0.64 11.20  |
|  | शक संहल के आरेज :<br>हिंदबा) निमिरेड के लि<br>हस्ता./  | 4 U 34   | र/ हानि)<br>ति हेतु कुल जापला   
  |  
   
  |   | -23.53 -   
   
   | 21.96 4  | 25.56 -4   | 879 -832  
  | 29 (164.80)  |  | Other express     Profit/(Loss) from continuing operations     before succeptional items and tax (1-2)   | 5  | Patal 431.6<br>2.3   
   |  | 311.59 6   
   | 19.24 42  | 7.87 659.53<br>9.88 -40.75   |
| म्बाइन, ज्युं दिल्ली<br>विविन, १२.१.२०२४   | हाडीन सिंह मन्हो<br>प्रवेधक निरोश<br>DIN:0014797   | an an  | ्ययवर्धः अवधः हतुः<br>। से लगाविष्ट्या<br>त समता लेशा पूर्वा  
  | नाम / (हानि) ताथ वल  
   
  | વવાપક   |  
   
   |  | _  |   
  |  |  | 4 Provision Revensal For DTA     5 Profit / Quest from continuing operations before to     6 Provision for Tax   | (3-4)  | 2.3  
   | -5.41  | 63.76<br>10.57   
   | -1.40 3   | 3.34<br>8.88 -52.09  |
| হুবেশয়গুন হেমচেন<br>হুবেশয়গুন বিন্দাবিলা নিশিবন<br>প্রমাণ- মেরলচা,লেলম্বের্ডায   | 0140014737   | (uf  | वेल मूल्य ७ ५३ प्रति<br>। समताम मिनमामाज  
  | T STORE PLANT S  
   
  | पूर्ववती वर्ष   | 925.56 9   
   
   | 25.56 %  | 25.56 %  | 5.56 925.5  
  | 56 925.56  |  | 7 Net Profit / Cass) from continuing operations(5-6)<br>Other Comprohensive Income<br>1. Non that will not occlassified to statement of profit   | nd loss  | 1.6  
   | 4.41   | 53.39  
   | -1.40 2   | 9.51 -52.09  |
| vilgen mellen sonner i daget sonn i de sonder des els Roel -ins<br>gene else- ets-els-appelet d'an algete seine terrete vers attentio<br>a ferier ann at men final de el mit al les elsente sondiate fiele   | 001<br>ealliers etitiofiel.com<br>प्रतिपाचे का किल्ला<br>box word -  | WILL SET   | कुलन-पत्र में मित्रशित<br>1 फ्रीन जमता जन्म स<br>तमिलीकन)   
  |  
   
  | .(4   | 36.28) (2  
   
   | 1.96) (32  | 8.97) (43  | 8.28) (328.9)   
  | (367.49)   |  | 8 ii. Tax on flom that will not reclassified to statement o<br>iii. Items that will not the rectassified to Profit & Loss<br>iv. Tax relating tillems that will not be classified to Pr  | profit and los   | 5  
   |  | 1.0  
   | *   |  |
|  |  |  | मूलमूत<br>रारलीकृत  
  |  
   
  | _   | -0.25  
   
   |  |  | 0.74 -0.4   
  |  |  | Total Comprehensive Income (7-8)     Paid up Equity Share Capital Equity Shares of € 10/     Other Equity  |  | 1.8-219.6  
   | 4 -5.41<br>2 219.62  | 53.39  
   |   | 9.51 -52.06<br>9.62 219.62   |
| अभियाल में पुत्र का<br>अतीर के प्रेर पुत्र का 7,000 (ter conservality)<br>कार्यप्राय का 9,01<br>84.17 (156.17) 58.1  |  | 1. जुपराबर   |   
  | खिलान) विनियमायली<br>हा से निरुत्त प्रायन्त्र न  
   
  |   |  
   
   | र स्टॉक एक्स   | व (बाएसई)  | हे पास फाइलकह   
  |  |  | Earnings Per Share (Face Value of 7 10/- each)<br>Earning: Per Share from continuing operation belo<br>12 (Not Areualised)   | e exceptonal   | 100  
   |  |  
   |   |  |
| 비난 한 번 비원 비원 18 분만 및 1991 / 10년 (Serurer<br>에너/가 ansame ong 바 비원         10 년 (Serurer<br>비원 기 ansame ong 바 비원         54 (7 (156 17) 58)           비난 바 너 테 산 비 산 번 및 1991 / 12년 (Serurer<br>제가 제 1997 1991 1991 1991 1997 1997 1997 19   |  | वेवसाइ<br>2. चपरीक   | े www.bscindit.co<br>। पश्चिममें की समीक्ष  
  | m पर उपलब्ध है।<br>1. लेखाव्यीक्षण समिति   
   
  |   |  
   
   |  |  |   
  |  | L  | a. Basic<br>h. Diluted<br>For  | and On beh   | 0.00<br>.00<br>aff of Board of   
   | -0.25  | 2.43   
   | -0.06   | 1.34 -2.37<br>1.34 -2.37<br>Is Limited   |
| 2017, 20 वासाला कहा मंदर<br>स्वार्थि के लिए कुए स्वार्थ का प्राप्त कही के लिए के 2017<br>(1947) (पर के बार) की जाप सारफ कर (१९ से 201)<br>साहित्यु   |  | 1 पूर्ववसी   | ण किम्पाणम्य ।<br>⊐स्थं ∕ अवसि के अ   
  | कड़ी को, जही-जहीं ।  
   
  | अनिवार्थ समझा -   | स्य हे, वही-यह   
   
   | ्रुन्त्योयस्थित  | किया गता है  | कृते एएनएच  
  | র্ববন্ধীন লিম্টির  |  | Nace : New Delhi   |  |  
   |  |  
   | DIN   | 50-<br>p Makkad<br>I-01112423  |
| 2006 there give present in affect gas q. (1/-)         000.01 (1.02.17)         00.01           2006 there gas quarks from an intervery circle for float of aff         300.00 (300.00)         300.00           2002 there from an intervery circle for float of aff         300.00 (300.00)         300.00   |  |  | 4-02-2004   
  |  
   
  |   |  
   
   |  |  |   
  | हसार/-<br>(मेहिंदर समी)<br>प्रमंध निदेशक   |  | Sale : 14.02.2024  | ते संबल्या   |  
   | -  | ()   
   | Managing  | Director)  |
| uff den ein fellen en effen gen einer-i 251.81 236.22 251.0<br>Infle infl  | H - 366 22 - 193 45  | स्थान :  | नई विल्ती   
  |  
   
  |   | _  
   
   |  |  |   
  | mईएन : 00036262  |  | गीवत कार्यलय : 3/1   | एन : 1.53101<br>ए. प्रथम तल  | হতাঁতা লি<br>চা.200671.CT<br>নিনম গাম ৰ  
   | 145967<br>मत रहोते, पि   | nft110009  
   |   |  |
| (40.42.42.00)         2.80         (5.21)         11           (10.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.   | 85 (0.84) (3.90)   |  |   
  |  
   
  | DD<br>(CIN : L3   | 3302HP1  
   
   | 81PLC0   | 08123)   |   
  |  |  | मेरराष्ट्रद्धः २००० tarinienterprincian, ईन<br>31 दिसंबर 2023 को समाप्त दिमाला ए   | भूरनामः अ<br>ल ः ध्वराणान्न<br>च नाः साह   | terprinsprifi<br>of Upper 9  
   | वे हे gmail.com<br>लखापसाथित   | , information<br>विद्यासि प  
   | inotorprises<br>रुपाछा का   | in<br>साराश  |
| c. Institut Alb, Ballers alban, als cardinares assessed; Differs, 545 al Sifters 30, al m<br>3. Strint, 553 al renor Bredt alt 4. while a bits ten offstel 4. Days seen an<br>Schlass, units (Strint, 6044) 40. Set 1875 ff, 56462. www.lanenaaliseatescention<br>careful al invest to renorm 1.   | er wite special & van er<br>1 de sager 81 git viteori<br>did.com vit Aghiliter wi  |  |   
  | d. Office: Plot<br>Tel.: +91   
   
  | No. 3, Sec<br>172 2548  | tor - III, Pa<br>223 / 24  
   
   | Fax : +  | Distt. Sol<br>91 172 2   | 548302  
  |  |  | e Race   |  |  
   | v  | <b>1</b> 21  
   |   | राणि लख  |
| () evites offend all refers after web9 get all og 8 alle treak av as som 2, gogs all<br>get agyañte fina roa 8 alle web 4 hefte dag adgest pre stifte triber 40 og 8<br>addres, get 80 alle tra 8 web 400 alle 2440 allen han wete fina get 8 fina an<br>addres.   | unifier loss it febre no<br>obscure fielts ober an<br>de cost arc softer and   |  | STATE   
  | ite: www.kd  
   
  | INAUDIT   | ED FIN   
   
   | ANCIAL   | RESU   | LTS FOR   
  | 1  | *  |  | सम्मन<br>गिम्मही<br>३१ १२ २१२३   | ्रष्ट्रांश्ली<br>तिपकी<br>30.09.2023   
   | समाप<br>तरनुरूपी<br>तिमडी  | समाप्त नी<br>माह<br>31 12 2023   
   | समाज<br>तर्नुलवी ने<br>मह   | जमान<br>पूर्ववती वर्ष<br>31 03 2023  |
| feret a nex fedfte rents, der rend (NA) "KC i open dan flar er, b  | तिरेशक संकर की कोर<br>अन्द्र/<br>राजीव कुम्ल प्र<br>पूर्वकारिक निर्देश   | -  | HE QUAR   
  | TER AND N  
   
  | NINE MO   | NTHS E   
   
   | NDED 3   | 31 DEC   | EMBER 2<br>cept earning   
  | 2023   | 1  | परिमालनों से कुल आप (नियल)<br>अलीन केंद्र नियल लग-/(cft) (कर, जगवारीक  | 23.76  | 32.95  
   | 31 12 2022<br>45.52  | 91.43  
   | 31.12.2022<br>170.8   |  |
| men : mi fizmi<br>Taran se word, zoza  | ्रांश्रीमा निरंत<br>डींस्ट्रीग गंग २००४०   | a 8.   | Particular<br>Refer notes b   
  | elow) Qu   
   
  | arter Corre   |  
   
   |  | Quarter  | Consolidate<br>Correspondin   
  | g Year to date   | 3  | अस्तर्भ केंद्र गिरुम लग-/(हरीन) (कर, जगवारिक<br>एनं/जयवा अलगालन गयो से पूर्व)<br>जर पूर्व अवधि तेतु गिराम लाभ-/(हर्तिन) (लगवारिक<br>एनं/अवधा अन्तरात्मक वाही के जनवा।  | 10.89  | 20.32  
   | 12.6   | 56.41  
   | 36.07   |  |
| South West<br>Pinnacle   |  | ]  |   
  | Dece   
   
  | ember 31 D  | ecember 1<br>2022  
   
   |  | ended<br>31<br>December  | Quarter ender<br>31<br>December   
  | the current period   | 4  | अर प्रचल असी के निवल सम्म/(हनि)<br>(सम्मदीक पर/असन असमारम मते के मार्ट्स)  | 10.89<br>8.06  | 20.32<br>15.04   
   | 12.6   | 56.41<br>41.74   
   | 36.67   |  |
| साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन लि<br>र्गमाईलः LI3203HR2666PLC649480  |  |  |   
  |  
   
  |   |  
   
   | ending 31<br>December<br>2023  | 2023   | 2022  
  | ending 31<br>December<br>2023  | 5  | अमीरि हेतु जुल म्यापक आग राजपति हेतु<br>( तस / (हार्ग) (यह पापात) तथा ज्याय व्यापक ज्ञाय<br>(हर पापत) में माम्यविष्ट,<br>समया क्या पूर्वते   | 8.05   | 15:04  
   | 9.32   | 41.74  
   | 26.69   |  |
| पति एवं कॉर्बरेट कार्यालयः मुलल, फॉट मं 16 पीमार-44, मुक<br>ईमेल scoreanský outhvestpinnack com<br>बिमाइट www.southrestpinnack.com   |  | 1.7004   | income from open  
  |  
   
  | 1000  | audited) (i<br>7929  
   
   | 27085  | Unaudited)<br>37966  | (Unaudited)<br>31704  
  | (Unaudited)<br>106284  | 6<br>7   | अलबिटियं पुनर्मुत्योबन आर्थेल जोडकर) पुर्वसी<br>व्य के नेताराधिक पुलन-पत्र में गिदहिलमुतार<br>अन्य यही आग (१. १८/- प्रत्येक वर्ष) (प्रशिवानन.  | 377.5  | 377.3  
   | 377.3  | 377.3  
   | 377.3   |  |
| पहले अंतरिम लागांश और रिकॉर्ड तिथि के बारे में<br>एतद्वारा नांटिस विया वया है कि मेसर्स साठ्य प्रेस्ट पिनेकल एव<br>(कंपनी) के निदेशक मंडल ने कुवयर, 14 फरवरी, 2024 को हुई अ  | संप्लोरेजन लिमिटेड   | 2 Net<br>from  | Profit/(Loss) for<br>ordinary activit   
  | the period 17<br>es (before  
   
  |   | 1560   
   
   | 5822   | 5037   | 4185  
  | 13925  |  | वा युव अपरिकालिक वरिधालने के लिये)   |  |  
   |  |  
   |   | 7.55   |
| वर्ष 2023-24 के लिए २०25 प्रति इकियटी सेयर (प्रायंक 10 क)<br>बा 25/के पहले अंतरिन लामांत को मंजूरी/फीषणा कर दी है।<br>बोर्ड दारा जेवित रू.025 प्रति इकियटी सेयर का अंतरिम लामांस   | गों के अंकित मूल्य   | extra  | exceptional ite<br>ordinary items)<br>Profit/(Loss) for   
  |  
   
  | 764   | 1560   
   
   | 5822   | 5037   | 4185  
  | 13925  |  |  | 0.24   | 0.45<br>0.45   
   | 0.28   | 1.24<br>1.24   
   | 0.79  |  |
| बोर्च ने कांगनी के सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से<br>2024 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में तथ किया है। अंतरिम लामांश   | बुधवार, 28 फरवरी,<br>का मुगलान कंपनी   | from tax (r  | ordinary activit<br>ifter exceptional it<br>ordinary items)   
  | ies before   
   
  |   |  
   
   |  |  |   
  |  | 1  | हिभाषिती<br>(क) जनतेवता सातवार, सेवी (सूचीवारण दावित्व एवं अन्य क<br>जना व्यवस्थित नेपालिक / अर्धुवालिक विसीध परिपाल   | र्टालरम आवर<br>बे. जिल्ला आ  | क्सरको) जीनिक<br>सं का एक स  
   | भावती 2015 म<br>संग थे । वेद्यां   | i filitan 25 i   
   | ते जालंच रहे<br>बेक जिल्लेच र   | व एक्समेवो क<br>सीमार्ग का उन्हें  |
| के उन इक्विटी शेयख्यारकों को घोषणा की तालेख से तीस दिनों के<br>जिनका नाम कंपनी के सदस्वों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी के !<br><b>पन्करी, 2024</b> जो रिकॉर्ड तिथि हैं, को होयरों के लामकारी मालिव  | रेकोई में बचबार 28   | 4 Net from   | Profit/(Loss) for<br>ordinary activitie   
  | s after tax  
   
  | 315   | 1164   
   
   | 4345   | 3710   | 3087  
  | 10263  |  | प्रावन, स्टीज एकार्यनां की वेशलाइट जावीन (www.ms<br>पर स्टान्डल है। (भूद) संपत्रांतन नीतियों में परिप्रांग्लूनी) के<br>पर पहलेदाने प्रस्ता को एक पार्श्वरणती के प्रावस से प्रान  | ci.in) w तब<br>trenum Aus  | तः सूर्वाधदः निव<br>। आम्\/ सनि, १   
   | त्वत्र की वेपसा<br>हुल जापक जा   | तः अध्यति (wa<br>च अध्यत्त किली  
   | ww.tarinier<br>am germ  | flerprises in<br>floftw we(z)  |
| देता है, इस उदेवय के लिए तय की गई है।<br>विश अभिनियम, 2020 के प्रावचनों के अनुसार, कंपनी हत्वा चुनता<br>जाने वाली लाख्तंत्र आव उसके शेमरुप्राएकों के हाथों कर योग्य है   | न और वितरित की<br>ओर आयकर अधि  | extra<br>5 Total   | exceptional ite<br>ordinary items)<br>Comprehensive   
  | income ( 13  
   
  | 315   | 1164   
   
   | 4247   | 3847   | 3115  
  | 10296  | 3  | ar annan 2001 ar far filligann ar dann a 200   | , and short  | to (ci) device   
   | Cardos arte  | নিইবক ।  
   | मेंबल केंद्र राष्ट्रा   | वत्ताकी ओर से<br>तहजेज विदमिदेव<br>हस्ता /-  |
| नियम् 1961 में निवासित लागू दरों पर कपनी को सदस्यों को मुगत<br>से आंत पर कर (टीडीएस) काटना आवश्यक है। वयनुस्वर, उपरं<br>का मुगतान अधिनियम के तडत समय-समय पर अधिमुखित लागू र  | ान किए गए लामांश<br>१७ संदर्भित लामांश   | (Loss<br>profit  | ) for the period<br>for the period (af<br>comprehensiv  
  | comprising<br>ter tax) and   
   
  |   |  
   
   |  |  |   
  |  | 1  | दिलांकः १४०२३०२४<br>मधानः : दिल्ली   |  |  
   |  |  
   |   | इन्द्रा /-<br>तन्म संद वर्षिया<br>प्रबंध निदेशन<br>४२- ०००००२१७  |
| सहित स्रोत पर कर की कटीती के बाद किया जाएगा।<br>कृपया ध्यान दें कि टीडीएस आवाध्यकताओं के अनुवालन को स  | क्षम करने के लिए   |  | tax)]<br>up equity share o<br>in Rs 10 per share  
  |  
   
  | 254   | 1274   
   
   | 1254   | 1254   | 1274  
  | 1254   |  | anto materia.<br>Ma  |  | ×  
   | -  | 2  
   |   | gy= outdatt  |
| संवरणों से अनुरोध हैं कि वे क्रियोजिटरी प्रतिभागी या कपनी के रहे<br>एजेंटों, मेससे सिथिन टाइम इविया प्रदर्श्वट लिमिटेड के साथ अ<br>अनुसार आगासीय स्थिति, पैन, श्रेणी से संबंधित दर   | यकर अधिनियम के<br>तावेजों / फॉर्म को   | 7 Earni  | ngs per share (<br>(notannualized)  
  |  
   
  |   |  
   
   |  |  |   
  |  |  | डायोन ग्ले<br><sub>सीआईएन</sub>  |  |  
   |  | 32   
   |   |  |
| https://liiplweb.linkintime.co.in/formsreg/submissi  |  |  |   
  |  
   
  |   |  
   
   |  |  |   
  |  |  |  |  | 645 20,003   
   |  |  
   |   | -110092  |
| 15h.html# पर अपतेट वर्षे या इंमेल या secretarial@southv<br>पर भंगलवार, 27 फरवरी, 2024 तक मेज सकते हैं।   | vestpinnacle.com   |  | lasic (Rs)<br>Nuted (Rs)  
  |  
   
  | .49<br>.49  | 9.13<br>9.13   
   
   | 34.66<br>34.66   | 20.64<br>20.64   | 17.92<br>17.92  
  | 61.50<br>61.50   |  | पंजीकृत कार्यालय : 409, चौधरी कॉम्प<br>31 दिसंबर 2   | 123 को सन  | गण्त तिमाही  
   | . मधुबन म<br>एव जो मार   |  
   | र, दिल्ली-  | TIDOOL   |
| 15b.imml# पर लगवटे कर्न या इंसेल पा अटररधातांक्रे(Southy ve friends), 27 week?, 2024 तक रेल तकरे हैं।<br>यगरोक जानकारी कंगनी की वेबसाइट यानी www.southwestp<br>स्टॉक एक्सरोज की देवसाइट जाडा कंगनी के शेषर सुवीबद्ध हैं या<br>(www.bscindia.com) और नेमानत स्टॉक एक्सवीज और्ष  | vestpinnacle.com<br>innacle.com और<br>नी कीएसई लिमिटेड   | (b) D<br>Notes:<br>1. The ub   | Nuted (Rs)<br>ove Unaudited fina  
  | 10.  
   
  | .49<br>eviewed by the   | 9.13<br>Audit Commit   
   
   | 34.66  | 20.64<br>wed by the B  | 17.92<br>card of Directors  
  | 61.50<br>s at its meeting  |  | 31 विसंबर 2<br>क्रलेखाप  | 123 को सन  | गण्त तिमाही<br>य परिणामों<br>(स  
   | . मधुबन भ<br>एव नी मार<br>का विवरण<br>मे चरित्र रु.  | िक<br>साम में हैं, जा  
   | । রঙ্গ রন্যায   | उल्लेखित न हो  |
| 15h.html# पर নাগঠত কৰা যা হুনিগ গা মঙেলেধোনাএ(s)outh<br>দে খাঁপৰাৰ, 22 ফৰেৰ্কা, 2024 জন ক'ন মংকা ইয়<br>আগলৈ আলভানী কাৰনী কৰাছেই যাগী www.southwosgh<br>হোঁক খেলটোৰ এই বিৰায়েত ভাৱা ক'বলী ক ইয়াহে ব্যৰ্ভীৰন্দ্ৰ ই যা<br>(www.bscindia.com) और দাঁগলৰে ভাত্তি প্ৰকাশৰ ক<br>(www.bscindia.com) और দাঁগলৰে ভাতি প্ৰকাশৰ ক<br>ৰাজীক আলখাকী কৈ বিশ্ব সুৰতা হৰামৰ বিৰাহয়ে বাঁৰ বাঁৰ হালক  | vestpinnacle.com<br>innacle.com और<br>नी बेएसई लिमिटेड<br>इंडिया लिमिटेड<br>र एजेंट यानी मेलसं   | (0) D<br>Notes:<br>1. The ab<br>held or<br>been s<br>being!  | Nuted (Rs)<br>ove Unaudited fina<br>n 14 February 2024<br>ubjected to limited<br>lied with the BSE ar   
  | 10.<br>Inclail results were ro<br>The unaudited fin<br>roview by the Statut<br>cl National Stock Ex  
   
  | .49<br>ancial results f<br>tory Auditors of<br>rohange  | 9.13<br>Audit Commit<br>or thecurrent of<br>the Company  
   
   | 34.66<br>be and appro<br>parter and n<br>The unmodif   | 20.64<br>wed by the B<br>ne months a<br>led review re  | 17.92<br>card of Director<br>inded 31 Decem<br>port of the Statu  
  | 61.50<br>s at its meeting<br>ther 2023 have<br>tory Auditors is  | <u>व</u> ज   | 31 दिसंबर 2<br>अलेखाप<br>12  | 123 को सन्<br>विक्रित विक्री<br>31.12.2023   | ग्रण्त सिमाही<br>य परिणामों<br>(स<br>कमज तिमा  
   | मधुबन म<br>एव नी नार<br>का विवरण<br>ने चठिव रु<br>]<br>31.12.2022  | নাৰ ন ই. জ<br>লগ্য ন ই. জ<br>তথ্য<br>31.12.212   
   | ৰ তজ অস্বথ্য<br>দানী পাত<br>3   31.12.202   |  |
| 15h.hmhi पर अपदेत पर पं पा इंगर पा secretarial@south<br>पर मंगलार, 27 पालर, 27 का तकते हैं।<br>उपरोक्त वानंकदी करेगी की विसाहद यांनी अभ्य southorship<br>राजि (स्वतीक की देशराह प्रात्त के अध्य सुवीकद है या<br>(www.bscindla.com) और नेशासत स्टीक (स्वताई का<br>(www.bscindla.com) और नेशासत हो।<br>अधीक वानंकरी के लिए, ज्यादा हमारे तरीक्तदुर वा कंपनी से secretarial@<br>cie.com पर संपार्क करें।  | vestpinnacle.com<br>innacle.com और<br>नी बैएसई लिमिटेड<br>इडिया लिमिटेड<br>एफोट. यानी मेलसे<br>southwestpinna-<br>केई के आज्ञानुसार  | (b) E<br>Notes:<br>1. The ab<br>held o<br>been s<br>being<br>2. The at<br>Reguli<br>quarte   | Nuted (Rs)<br>ove Unaudited fina<br>n 14 February 2024<br>ubjected to limited<br>led with the BSE and<br>over is the extract<br>store is the extract<br>risk of the SEB<br>rly financial results  
  | 10.<br>noial results were re<br>1. The unaudited fin<br>molecular and the Statut<br>of National Stock Ex<br>of the detailed fam<br>1 (Listing Obligation<br>are available on the   
   
  | .49<br>ancial results f<br>tony Auditors of<br>rohange.<br>nat of the Unau<br>ts and Disclose   | 9.13<br>Audit Commit<br>or thecurrent of<br>the Company<br>udited quarter<br>are Requirement   
   
   | 34.66<br>ee and appro<br>uarter and ni<br>The unmodif<br>y financial Re<br>nts) Regulati   | 20.64<br>wed by the B<br>me months a<br>led review re<br>esuits filed w<br>ons, 2015. T  | 17.92<br>ourd of Directory<br>nded 31 Decem<br>port of the Statu<br>th the Stock Ep<br>he full formut of  
  | 61.50<br>s at its meeting<br>ther 2023 have<br>dory Auditors is<br>schange under<br>the Unaudited  |  | 31 दिसंबर 2<br>ठालेखान<br>त. निवलन<br>राज्यस<br>प्राय्तमानी से प्राजस्व  | 23 को सन्<br>विदा विसी<br>31.12.2023<br>(क्लेक्लनीकि<br>306.49   | राण्त विमाही<br>य परिणामी<br>(स<br>वन्त्रज किना<br>30.59.2023<br>) (जनेवारसील)<br>227.27             
   | मधुबन म<br>एव प्री मा<br>का विवरण<br>मे चरित्र रू<br>31.12.2022<br>(स्वेक्स्सीवि<br>230.90   | साथ में हैं, जम<br>साथ में हैं, जम<br>31.12.202<br>( (मनेप्रामीक)<br>725.99  
   | r 85 arder<br>r 8 are<br>3 31.12.202<br>0 (advertill<br>723.02  | सल्लेखित न हो<br>सलल्ल वर्ष<br>2 31.03.202<br>द) (नेवारतिह)<br>948.21  |
| 153.html# पर मापटे पर पंप प्रेमंग पा secretarial@south<br>पर मंगलार 27 पर पर्व, 2024 का स्वात सकते हैं।<br>वार्वराक वानाकरी कामी की विसाहर वा काम्प्र आत सकते हैं।<br>राजि परस्तीक की दिसाहर जा काम्प्र की की स्वार पुरिसद है या<br>(www.scientar.com) और नेमानत स्टीक एससेका प्रे<br>अधिक वानाकारे के लिए, कृष्ण्या काम्प्र देविस्टार की स्वार ट्रांका<br>दोलिय दावर होजिय हुआ हमारे दिनिष्ट वा करनी से secretarial<br>cie.com पर संघर्क करें।<br>खारम बेस्ट निरेकट पर  | vestpinnacle.com<br>innacle.com और<br>नी वैएसई लिम्टिड<br>इडिया लिम्टिड<br>र एजेंट यानी मेससे<br>southwestpinna-<br>बोर्ड के जाजानुसार<br>सप्लोरेडन लिम्टिड<br>इस्ता/-<br>चिकास जैन  | (b) C<br>Notes:<br>1. The ab<br>held of<br>being?<br>2. The at<br>Reguli<br>quarte<br>the con  | Nuted (Rs)<br>ove Unaudited fina<br>n 14 February 2024<br>ubjected to limited<br>lied with the BSE at<br>sove is the extract<br>ation 33 of the SEE<br>hy financial results<br>impany's website we  
  | 10.<br>noial results were re<br>1. The unaudited fin<br>molecular and the Statut<br>of National Stock Ex<br>of the detailed fam<br>1 (Listing Obligation<br>are available on the   
   
  | .49<br>ancial results f<br>tony Auditors of<br>rohange.<br>nat of the Unau<br>ts and Disclose   | 9.13<br>Audit Commit<br>or thecurrent of<br>the Company<br>udited quarter<br>are Requirement   
   
   | 34.66<br>ee and appro<br>uarter and n<br>The unmodif<br>y fnancial Re<br>nts) Regulati<br>nges i.e. www  | 20.64<br>wed by the B<br>me months a<br>led review re<br>south field a<br>ons, 2015. T<br>obseindia.co<br>on the be  | 17.92<br>card of Directorn<br>ded 31 Decem-<br>port of the Statul<br>th the Stock Eo<br>mand www.noe<br>half of Board<br>Yashovar   
  | 61.50<br>s at its meeting<br>ther 2023 have<br>dory Audion in<br>Automy Automy Automy Automy Automy<br>Automy Automy Automy Automy<br>Automy Automy Automy Automy<br>Automy Automy Automy Automy<br>Automy Automy Automy<br>Automy Automy Automy Automy<br>Automy Automy<br>Automy Automy Automy<br>Automy Automy<br>Automy Automy<br>Automy Automy Automy<br>Automy Automy<br>Automy<br>Automy Automy<br>Automy Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Aut |  | 31 दिसंबर 2<br>जालेखाय<br>ह.<br>त. निवरन<br>राजरब  | 23 30 11<br>1901 (2013)<br>31.12.2023<br>(solume filler)<br>306.49<br>3.77<br>310.25   | सम्बद दिमाही<br>य परिणामी<br>(स<br>30.09.2023<br>) (क्रोबलनीमिन)<br>227.27<br>38.64<br>265.91  
   | मधुबन म<br>एव जी मह<br>का विवरण<br>मे चरित्र क<br>31.12.2022<br>(स्वेयलीय<br>256.63<br>497.53  | सार में है. ज<br>एनन<br>31.12.202<br>(क्रेस्प्रामिन<br>725.99<br>42.41<br>768.40   
   | r ets acteur<br>r et exe<br>3 31.12,202<br>0 (acteurette<br>723.02<br>269.73<br>592.75  | एल्सेविक न हो<br>लगजा को<br>(2) 31.03.202<br>व) (नेकारवित)<br>(नेकारवित)<br>() 948.21<br>() 276.38<br>() 1.224.67  |
| 5.5.hmlh पर सपरि गर्म या देनेग पाउसरपरामाळेळिआणी<br>पापलिक जारमहर्में 2004 लग्दे भग लगक हैं।<br>पापलिक जारमहर्में 2004 लग्दे भग लगक हैं।<br>पापलिक जारमहर्में दिवाइट जाव काली के प्रेरंस रुपुरीवाई देने<br>(www.bristicaucom) और मेमानत रहीन एसमाये और<br>(www.neinda.com) भी पाउसाई 1<br>आगिक जानमहर्म के लिए कृष्णा कार्म जीसदार और संगत ट्रांस्स<br>तिकिन व्यूस देविक प्रदर्श निर्धाय कार्म जीसदार और संगत ट्रांस्स<br>तिकिन व्यूस देवा प्रदर्शन निर्धेय वा कांग्रे से संगत ट्रांस्स<br>तिकिन व्यूस देवा प्रदर्शन निर्धेय वा कांग्रे से संगत ट्रांस्स<br>तिकिन व्यूस देवा प्रदर्शन निर्धेय वा कांग्रे से संगत ट्रांस्स<br>वार्क्स के स्ट्रेस्ट्रांस<br>सार्व्य के स्ट्रेस्ट्रांस  | vestpinnacle.com और<br>नी बेएसई लिमिटेक<br>इठिवा लिमिटेक<br>एउटे वानी मेलसे<br>southwestpinna-<br>बोर्ड के जाजानुसार<br>सारबोरेवन लिमिटेक<br>हरसा/-  | (b) C<br>Notes:<br>1. The ab-<br>held or<br>being<br>2. The at<br>Reguli<br>quarte<br>the cor  | Nuted (Rs)<br>ove Unaudited fina<br>n 14 February 2024<br>ubjected to limited<br>led with the BSE and<br>over is the extract<br>store is the extract<br>risk of the SEB<br>rly financial results  
  | 10.<br>In cial results were in<br>The unaudited fin<br>mniew by the Statu<br>chilational Stock Es<br>of the detailed form<br>( juising Obligation<br>are available on the<br>wikkdi, com   
   
  | .49<br>ancial results f<br>tony Auditors of<br>rohange.<br>nat of the Unau<br>ts and Disclose   | 9.13<br>Audit Commit<br>or thecurrent of<br>the Company<br>udited quarter<br>are Requirement   
   
   | 34.66<br>ee and appro<br>uarter and n<br>The unmodif<br>y fnancial Re<br>nts) Regulati<br>nges i.e. www  | 20.64<br>wed by the B<br>me months a<br>led review re<br>south field a<br>ons, 2015. T<br>obseindia.co<br>on the be  | 17.92<br>bard of Directorn<br>aded 31 Decem-<br>port of the Statu<br>the the Stock Ex-<br>te full format of<br>m and www.nee-<br>half of Board<br>Yashovar<br>a and Managi  
  | 61.50<br>s at its meeting<br>ther 2023 have<br>dory Audion in<br>Automy Automy Automy Automy Automy<br>Automy Automy Automy Automy<br>Automy Automy Automy Automy<br>Automy Automy Automy Automy<br>Automy Automy Automy<br>Automy Automy Automy Automy<br>Automy Automy<br>Automy Automy Automy<br>Automy Automy<br>Automy Automy<br>Automy Automy Automy<br>Automy Automy<br>Automy<br>Automy Automy<br>Automy Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Automy<br>Aut |  | 31 दिसंद 2<br>अलेलाम<br>प्रहार<br>परिपान से पानस<br>वाज साम<br>जुल तालद (1-11)<br>यह<br>सर्वन देवा म<br>संस्थ  | 23 30 स<br>विंदा विंसी<br>31.12.2023<br>(क्रोक्स-विंक्स)<br>306.49<br>3.77   | तापता विभावती<br>य परिणामी<br>(स<br>बन्द्रभा फिला<br>30.09.2023<br>)<br>अनेबलस्वील<br>2227.27<br>38.64   
   | मुद्दुबन म<br>एव नी मार<br>का पिवरण<br>वी चरिय क<br>31.12.2022<br>(स्वेक्स्टोबि<br>230.90<br>266.63  | साथ में हैं. जन<br>साथ में हैं. जन<br>31.12.202<br>( क्रिटेक्स्ट्रोडिस<br>725.99<br>42.41  
   | r 85 arden<br>r 8 are<br>3 31.12,202<br>0 (scherrith<br>723.02<br>269.73  | प्रस्तेषिक न हो<br>स्वयन्त वर्ष<br>2 31.03.202<br>ह) (मेकारविक्रि)<br>948.21<br>276.35<br>1,224.67<br>1,224.67<br>757.68<br>26.25  |
| 5.5.hmlh पर सपरि गर्म या देनेग पाउसरपरामाळेळिआणी<br>पापलिक जारमहर्में 2004 लग्दे भग लगक हैं।<br>पापलिक जारमहर्में 2004 लग्दे भग लगक हैं।<br>पापलिक जारमहर्में दिवाइट जाव काली के प्रेरंस रुपुरीवाई देने<br>(www.bristicaucom) और मेमानत रहीन एसमाये और<br>(www.neinda.com) भी पाउसाई 1<br>आगिक जानमहर्म के लिए कृष्णा कार्म जीसदार और संगत ट्रांस्स<br>तिकिन व्यूस देविक प्रदर्श निर्धाय कार्म जीसदार और संगत ट्रांस्स<br>तिकिन व्यूस देवा प्रदर्शन निर्धेय वा कांग्रे से संगत ट्रांस्स<br>तिकिन व्यूस देवा प्रदर्शन निर्धेय वा कांग्रे से संगत ट्रांस्स<br>तिकिन व्यूस देवा प्रदर्शन निर्धेय वा कांग्रे से संगत ट्रांस्स<br>वार्क्स के स्ट्रेस्ट्रांस<br>सार्व्य के स्ट्रेस्ट्रांस  | restpinnacle.com और<br>innacle.com और<br>ने बेएपर दिमिटेड<br>इठिया लिमिटेड<br>रुप्रेट बानी मेलसे<br>इठ्यामी/भ्रद्याने स्वा<br>इंड्यामी/भ्रद्याने<br>दिवास जैन<br>एर्च प्रबंग निर्देशक<br>इंड्या/–<br>विकास जैन   | (b) C<br>Notes:<br>1. The ab<br>held o<br>being!<br>2. The ab<br>Regul<br>guarte<br>the cor<br>Place: 0  | Nuted (Rs)<br>ove Unaudted fina<br>14 February 2024<br>ubjected to limited<br>field with the BSE as<br>yove is the extract<br>dation 33 of the SEE<br>hy financial results<br>website we<br>Surugram<br>4 February 2024   
  | 10.<br>In clair results were no<br>The uneutided file<br>moview by the Statuu<br>cd National Stock Ex-<br>d the detailed from<br>(Listing Obligation<br>are available on the<br>wwildd, com  
   
  | .49<br>wiewed by the<br>sancial results for<br>cohange<br>nat of the Unai<br>a and Dackow<br>a websites of th   | 9.13<br>Audit Commit<br>or thecurrent of<br>the Company<br>udited quarter<br>are Requirement   
   
   | 34.66<br>ee and appro<br>uarter and n<br>The unmodif<br>y fnancial Re<br>nts) Regulati<br>nges i.e. www  | 20.64<br>wed by the B<br>me months a<br>led review re<br>south field a<br>ons, 2015. T<br>obseindia.co<br>on the be  | 17.92<br>bard of Directorn<br>aded 31 Decem-<br>port of the Statu<br>the the Stock Ex-<br>te full format of<br>m and www.nee-<br>half of Board<br>Yashovar<br>a and Managi  
  | 61.50<br>s at its meeting<br>ther 2023 have<br>toty Audions is<br>acteange under<br>if the Unaudited<br>india com and<br>of Directors<br>ridhan Saboo  |  | 31 दिसंबर 2<br>.उस्तेरवाय<br>राजरण<br>राजरण<br>राजरण<br>राजरण<br>राजरण<br>राजरण<br>ख्रार राजरण<br>ख्रार<br>ख्रार राजरण<br>किराम<br>यात्र (दं येव्येवेस<br>किराम<br>यात्र (दं येव्येवेस<br>किराम<br>कार्य यात्र<br>राजरण<br>ख्रार (1-11)<br>यात्र<br>किर्मेर्स्य<br>ख्रार (1-11)<br>यात्र<br>किराम<br>किराम<br>ख्रार (1-11)<br>यात्र<br>किराम<br>खिराम<br>किराम<br>ख्रार (1-11)<br>यात्र<br>किराम<br>खिराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>किराम<br>कराम<br>कराम<br>कराम<br>किराम<br>कराम<br>कराम<br>कराम<br>कराम<br>कराम<br>कराम<br>कराम<br>क  | 23 35 11<br>36 12 2023<br>(x10 11<br>306.49<br>3.77<br>310.26<br>205.37<br>6.63<br>3.32<br>0.00<br>7.14  | सदस दिवसह।<br>य परिणामी<br>(स<br>विभाग निभा<br>विक्रियानी<br>कि.
(स<br>विक्रियानीक)<br>विक्रियानीक)<br>227 27<br>38.64<br>265.91<br>212.42<br>8.64<br>1.39<br>0.00<br>7.10   | <b>मधुबन म</b><br>एव नी माट<br>ठा दिवरण<br>वे चीटवरण<br>वे चीटवर क<br>31.12.2022<br>(जोवानीवा<br>250.90<br>266.63<br>497.53<br>191.72<br>6.60<br>1.20<br>0.000<br>7.06   | ana 4 8 an<br>even<br>31.12.202<br>0 provintion<br>725.99<br>42.41<br>758.40<br>612.63<br>19.92<br>7.59<br>0.00<br>21.44  
  | 4 88 2020<br>1  | उप्सेंगित न हो<br>समस्य वर्ष<br>(2 31.83.2022)<br>क) (त्रेप्रान्तीक)<br>948.27<br>276.38<br>1,224.67<br>757.66<br>25.29<br>6.48<br>0.00<br>0.00<br>27.99   |
| 15h.hmlai पर भारतेंद पर्व पा प्रेर्मण या secretarial@south<br>पर मोरावस 27 करने, 2024 का सकते हैं।<br>यारोफ जानकारी कोशनी की प्रेरम पूर्व राजी कर अपर southvostig<br>राजिए स्वरती को दिवसाइट जा बो कारों के प्रेरम पूर्व स्वाई य<br>(www.scindla.com) और पेरायत हो।<br>अधिक जानकारी के लिए, ज्यादा हमारे दीवस्टुर या केपरी की secretarial@<br>cie.com पर सोयम करें।<br>सरकार देश्वर दिनेक्ट पूर्व<br>स्वाद गुरुषमा   | restpiinnacle.com और<br>innacle.com और<br>इरिया दिमिटेड<br>इरिया दिमिटेड<br>र एजेंट यांनी मेससे<br>इरिया दिमिटेड<br>स्वाप्-<br>विकास जेन<br>ए प्रं प्रबंध निवेशक<br>हरेपा - 00048217   | (b) C<br>Notes:<br>1. The ub<br>held of<br>being<br>2. The being<br>2. The being<br>2. The corr<br>Place: 1:<br>Date: 1:   | Nuted (Rs)<br>ove Unaudied fina<br>14 February 2024<br>udjected to limited<br>fedwith the BSE at<br>sove is the extract<br>lation 33 of the SEE<br>fedwith the BSE at<br>sove is the extract<br>filling and the SEE<br>sove is the extract<br>filling at the SEE<br>sove is the extract<br>filling   | 10.<br>In clair results were no<br>The unaudited fin<br>motion by the Satural<br>Chational Stock E.<br>of the detailed form<br>(Listing Obligation<br>or available on the<br>workdd.com  
   
  | 49<br>eviewed by the<br>anciel results<br>fory Auditors of<br>cohings<br>and of
the Units<br>and of the Units<br>and of the Units<br>websiles of the  | 9.13<br>Audit Commit<br>or thecurrent of<br>the Company<br>udited quarter<br>are Requirement   
   
   | 34.66<br>ee and appro<br>uarter and n<br>The unmodif<br>y fnancial Re<br>nts) Regulati<br>nges i.e. www  | 20.64<br>wed by the B<br>me months a<br>led review re<br>south field a<br>ons, 2015. T<br>obseindia.co<br>on the be  | 17.92<br>bard of Directorn<br>aded 31 Decem-<br>port of the Statu<br>the the Stock Ex-<br>te full format of<br>m and www.nee-<br>half of Board<br>Yashovar<br>a and Managi   | 61.50<br>s at its meeting<br>ther 2023 have<br>toty Audions is<br>acteange under<br>if the Unaudited<br>india com and<br>of Directors<br>ridhan Saboo  
   |  | 31 दिसंबर 2<br>.उस्तेरपान<br>राजरण<br>पाजरण<br>पाजरण<br>प्राय प्रियाननी से पाजरण<br>ज्ञान या प्राय<br>प्राय (1-11)<br>प्राय<br>प्राय (1-11)<br>प्राय<br>प्राय (1-11)<br>प्राय<br>प्राय प्राय<br>प्राय प्राय<br>प्राय<br>प्राय प्राय<br>प्राय<br>प्राय प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय प्राय<br>प्राय<br>प्राय प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्रय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्राय<br>प्य<br>प्राय<br>प्र<br>प्राय<br>प्रा | 23 30 11<br>1801 001<br>31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(31122023<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311220)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(311200)<br>(31   | सप्त (देसार)<br>य परिणामे<br>(स<br>) 0.09.2023<br>) जनवारीका<br>2227.27<br>38.64<br>265.91<br>212.42<br>8.84<br>1.99<br>0.00   | <b>मधुबन म</b><br>एव नी माठ<br>वा दिवरण<br>वे पाहिस क<br>31.12.2022<br>(जनसन्दीय<br>250.90<br>266.63<br>497.53<br>191.72<br>6.60<br>1.20<br>0.00  
  | Rina R & R au<br>enera R & Au<br>31.12.202<br>0 (arburnition<br>725.99<br>42.41<br>755.40<br>612.63<br>19.92<br>7.59<br>0.00   | 4 88 20401<br>+ 8 40 20<br>3 31.12.202<br>0 (201401118)<br>723.02<br>269.73<br>992.75<br>574.77<br>19.54<br>6.22<br>0.00  
   | seekillaar er af<br>eense eef<br>2 31.03.2022<br>a) (dearrights)<br>2 448.2m<br>276.33<br>1.224.67<br>1 757.80<br>25.29<br>25.29<br>25.29<br>25.29<br>0.00<br>27.99<br>4.33.47<br>1.252.00<br>27.99<br>4.33.47<br>1.252.00<br>27.99<br>4.33.47   |
| 153.htmlai पर आपवेट गर्भ पा प्रेमेश पा अट्राराज्यात्रीहरूआप<br>पर भंगेल्लार 27 भर्फर, 2024 पर भंग तलते हैं।<br>वारोज वानरियों कांसी की प्रेसाइट पानि भरभ अव्योभर्प्स हो<br>(www.bocindu.com) और मेमारा पत्री एससेवा और<br>(www.bocindu.com) की मेर मेमारा पत्री<br>(www.bocindu.com) की मेर मेमारा पत्री<br>(www.bocindu.com) की मेर मेमारा पत्रि<br>(www.bocindu.com) की मेर मेरा मेर<br>(www.docindu.com) की मेरा मेरा मेरा<br>(www.docindu.com) की मेरा मेरा मेरा<br>(www.docindu.com) की मेरा मेरा मेरा<br>(www.docindu.com) की मेरा मेरा मेरा<br>(www.docindu.com) की मारा मेरा मेरा<br>(www.docindu.com) की मारा मेरा मारा<br>(www.docindu.com) की मारा मेरा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मारा मेरा मेरा मेरा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मारा मेरा मेरा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मारा मेरा मेरा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मेरा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मेरा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मेरा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मारा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मेरा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मारा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मारा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मारा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मेरा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मारा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मारा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मारा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा<br>(www.doc | restplinacle.com और<br>innacle.com और<br>हरिवा शिमिटेड<br>इतिवा शिमिटेड<br>इत्यामे भरवंसे<br>southwestplina-<br>abé के आज्ञापुसार<br>सार्थिद्व तिमिटेड<br>Seatu-<br>प्रकास प्रकार<br>सिर्वास<br>सीआई<br>रासविलास स   | (b) C<br>Notes:<br>1. The ub<br>held o<br>being<br>2. The st<br>Regula<br>quarks<br>the cor<br>Place: (<br>Date: 1<br>C<br>T<br>C<br>T<br>C<br>T<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C  | Huled (PS)<br>ore Unsudded from<br>14 February 2020<br>14 February 2020<br>14 General Control<br>ore is the extract<br>first first first first first<br>first first first first<br>first first first first<br>Surugram<br>GUCCE<br>LINDDL 1995<br>First, strategy  | الم<br>الم<br>الم<br>الم<br>الم<br>الم<br>الم<br>الم   
   
   
  | 49<br>aviewed by the<br>ancial results for<br>tory Autilities of<br>change<br>and of the Unan<br>end o   | 9.13<br>Audit Committi<br>the Committi<br>the Company<br>adited quarter<br>re Respirerm<br>re Respirerm<br>re Rospirerm<br>re Stock Excha   
   
  | 34.66<br>se and appro<br>uniter and n<br>The united<br>y francial R<br>na) Regulation<br>nges i.e. www<br>For and  | 20.64<br>wed by the B<br>me months a<br>lied raview re<br>esuits field w<br>ones, 2015. T<br>xbseindia.cc<br>on the be<br>(Chairma   | 17.92<br>bard of Directorn<br>nded 31 Decempond of the Statu<br>me the Stock Es<br>fail format of<br>mand www.new<br>half of Board<br>Yashovar<br>and Managi<br>D  | 61.50<br>s at Is meeting<br>the 2021 here<br>dary Auditors is<br>schenge under<br>the Unaudied<br>of Directors<br>offan Saboo<br>ing Director<br>IN-00012158  
  |  | 31 दिसंस 2<br>उसलेपास<br>प्रियान से प्रायस<br>वाज प्राय<br>प्राप्त तावस ()-11)<br>प्राप्त<br>प्राप्त तावस ()-11)<br>प्राप्त<br>प्राप्त तावस ()-11)<br>प्राप्त<br>प्राप्त तावस ()-11)<br>प्राप्त ()-12<br>किंदा<br>प्राप्त ()-12<br>प्राप्त कर्मपालिक क्य<br>प्राप्त ()-12<br>प्राप्त कर्मपालिक क्य<br>प्राप्त ()-12<br>प्राप्त क्या ()-12<br>प्  | 23 00 11<br>120 001<br>31 12 2023<br>0 00<br>10 00   | Incol         Incol           a         utRental           a         utRental     <   | Holden         Holden           VG         11         12           vol         12         12         12           1         12         230         90         266         63           230         90         266         63         497         53           191         72         60         1.20         2.00         0         0.00         7.08         112.46         319.06         1178         48         -         178.48         -         <  
    | TO           ennar H E au           ennar H E au           31.12.202           brann 12           12.599           42.41           788.40           612.63           19.92           7.59           0.000           2144           267.35           928.93           (160.53)  | a         255         32/2001           1         31.12.2020         0         (uclear:#18)           723.02         269.73         592.75           592.75         574.77         19.54           6.25         0.00         20.99           273.80         20.99         273.80           99.743         97.43         97.43   | uncertifiers in all           encore and           2           31.637.2027           a)           picture           1.224.67           1.224.67           2.35.28           0.00           2.35.21           0.00           2.79.38           1.224.67           1.225.20           0.00           2.799           4.33.47           1.252.00           (27.42)           (27.42)  |
| 153.htmlai पर आपवेट गर्भ पा प्रेमेश पा अट्राराज्यात्रीहरूआप<br>पर भंगेल्लार 27 भर्फर, 2024 पर भंग तलते हैं।<br>वारोज वानरियों कांसी की प्रेसाइट पानि भरभ अव्योभर्प्स हो<br>(www.bocindu.com) और मेमारा पत्री एससेवा और<br>(www.bocindu.com) की मेर मेमारा पत्री<br>(www.bocindu.com) की मेर मेमारा पत्री<br>(www.bocindu.com) की मेर मेमारा पत्रि<br>(www.bocindu.com) की मेर मेरा मेर<br>(www.docindu.com) की मेरा मेरा मेरा<br>(www.docindu.com) की मेरा मेरा मेरा<br>(www.docindu.com) की मेरा मेरा मेरा<br>(www.docindu.com) की मेरा मेरा मेरा<br>(www.docindu.com) की मारा मेरा मेरा<br>(www.docindu.com) की मारा मेरा मारा<br>(www.docindu.com) की मारा मेरा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मारा मेरा मेरा मेरा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मारा मेरा मेरा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मारा मेरा मेरा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मेरा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मेरा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मेरा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मारा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मेरा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मारा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मारा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मारा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मेरा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मारा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मारा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा मारा<br>(www.docindu.com)<br>कि मारा<br>(www.doc | restplimacle.com<br>innacle.com और<br>इतिव दिलिटेड<br>इतिव दिलिटेड<br>इतिव दिलिटेड<br>र एजेंट यांनी मेससे<br>southwestplina-<br>बेढे के आडाप्सार<br>स्वर्णा /-<br>विकास उंग<br>ए एवं प्रबंध निवेशक<br>इरिया –<br>विकास उंग<br>ए सीआई   | (b) E<br>Notes:<br>1. The being<br>being<br>1. The of<br>the correlation<br>Place: (f<br>Date: f<br>(c) E<br>(c)  | Huled (PS)<br>ore Unsudded from<br>14 February 2020<br>14 February 2020<br>14 General Control<br>ore is the extract<br>first first first first first<br>first first first first<br>first first first first<br>Surugram<br>GUCCE<br>LINDDL 1995<br>First, strategy  | اران<br>المناطقة المناطقة المن<br>مناطقة المناطقة المناط<br>مناطقة المناطقة المن<br>مناطقة المناطقة مناطقة المناطقة المناطقة من مناطقة مناطقة مناطقة مناطقة مناطقة مناطقة من مناطقة مناطقة مناطقة مناطقة مناطقة من ممالية مناطقة مناطقة مم<br>مناطقة مناطقة مناطقة مناطقة مناطقة من مناطقة مناطقة من مناطقة من مناطقة مناطقة من مناطقة من مناطقة من مناطقة من<br>مناطقة م   
   
  | 49<br>aviewed by the<br>ancial results for<br>tory Autilities of<br>change<br>and of the Unan<br>end o   | 9.13<br>Audit Committi<br>the Committi<br>the Company<br>adited quarter<br>re Respirerm<br>re Respirerm<br>re Rospirerm<br>re Stock Excha   
   
  | 34.66<br>se and appro<br>uniter and n<br>The unmodel<br>y fnancial R<br>nais Regulation<br>nges i.e. www<br>For and  | 20.64<br>wed by the B<br>me months a<br>lied raview re<br>esuits fied w<br>ones, 2015. T<br>xbseindia.cc<br>on the be<br>(Chairma   
  | 17.92<br>bard of Directorn<br>nded 31 Decem-<br>pert of the Statu<br>m the Stock Es<br>fail format of<br>m and www.new<br>half of Board<br>Yashovar<br>and Managi<br>D   | 61.50<br>s at its meeting<br>ther 2021 here<br>dary Auditors is<br>schenge under<br>the Unaudied<br>of Directors<br>offine Saboo<br>ing Director<br>IN-00012158  |  | 31 दिसंस 2<br>अलेलाम<br>परिपाल से राजस<br>वाज साथ<br>जुल तालस्व (1-11)<br>यहा<br>मांग (द केवेदेस<br>सिर साम में<br>सिर साम में<br>साथ (द केवेदेस<br>सिर साम में<br>साथ (द केवेदेस<br>साथ पर केवेदेस  | 23 00 11<br>120
001<br>31122023<br>(x10200<br>(x10200<br>306.49<br>306.49<br>306.49<br>306.49<br>306.63<br>6.53<br>6.53<br>6.53<br>6.53<br>6.50<br>0.00<br>7.14<br>84.30<br>306.76<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50 | Incr         Refine           autrol         (arrow           autrow   | महाबन         म           एव         1         गत           एव         1         गत         गत           एव         1         गत         गत         गत           प्रे         गत         गत <td>Top           anar # £. anar           131.12.2022           0.044           725.99           42.41           755.40           612.63           19.92           7.59           0.00           21.42           755.40           612.63           19.92           7.59           0.00           21.44           267.35           928.93           (160.53)</td> <td>4 85 3/2001<br/>1-8 ee<br/>3 31.12.202<br/>0 (advarration<br/>723.02<br/>269.73<br/>592.75<br/>574.72<br/>195.6.25<br/>0.00<br/>20.91<br/>273.80<br/>895.32<br/>97.43</td> <td>uncertifiers in all           encore and           2           31.637.2027           a)           picture           1.224.67           1.224.67           2.35.28           0.00           2.35.21           0.00           2.79.38           1.224.67           1.225.20           0.00           2.799           4.33.47           1.252.00           (27.42)           (27.42)</td>   | Top           anar # £. anar           131.12.2022           0.044           725.99           42.41           755.40           612.63           19.92           7.59           0.00           21.42          
755.40           612.63           19.92           7.59           0.00           21.44           267.35           928.93           (160.53)   | 4 85 3/2001<br>1-8 ee<br>3 31.12.202<br>0 (advarration<br>723.02<br>269.73<br>592.75<br>574.72<br>195.6.25<br>0.00<br>20.91<br>273.80<br>895.32<br>97.43  | uncertifiers in all           encore and           2           31.637.2027           a)           picture           1.224.67           1.224.67           2.35.28           0.00           2.35.21           0.00           2.79.38           1.224.67           1.225.20           0.00           2.799           4.33.47           1.252.00           (27.42)           (27.42)  |
| 155.bunda पर आपके पर था प्रेमेश पा अत्यारकार्याक्षे इत्याप्रे<br>प्रारंगिक वानावरी करनी की विश्वायुद्ध यानी अरुभ तकते हैं।<br>वारोग वानावरी करनी की विश्वायुद्ध यानी अरुभ त्याप्रेय हैं व<br>(www.sciendla.com) और नेमानत स्टीक एससींज वीश<br>(www.sciendla.com) और नेमानत स्टीक एससींज वीश<br>(www.sciendla.com) और नेमानत स्टीक प्रकार कि<br>तिर्वेश वानाकों के लिए, मुख्या करने वीशहर प्रा कांग्री सेक ट्रांक्य<br>हिल्ल पर संपर्ध करें।<br>स्टाय्स बेस्ट मिनेक्स प्र<br>स्टाय्स बेस्ट मिनेक्स प्र<br>स्टाय्स बेस्ट मिनेक्स प्र<br>स्टाय्स बेस्ट मिनेक्स प्र<br>स्टाय्स बेस्ट मिनेक्स प्र<br>क्या के प्रिक्स कांग्री  | अडोगालदे com और<br>innal com और<br>देखि विभिन्ने<br>र प्रतेव माने मेस्स<br>उठाती स्वान<br>के के जाकनुस्वर<br>स्वान<br>स्वान<br>स्वान<br>सिंजाई<br>रासविलास स<br>र cs@saica<br>1 दिसंबर 202   | (c) C<br>Notes:<br>1. The ability<br>2. The ability<br>2. The ability<br>2. The ability<br>2. The ability<br>3. The ability<br>4. The ability  | Nuted (RS)<br>ove Unsudted fina<br>14 February 2024<br>detected United<br>Resetted United<br>Resetted United<br>Resetted United<br>States<br>States<br>Constant<br>States<br>Constant<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>State                                     |  
   
  | .49<br>aviewed by the<br>anciel results for<br>cohange<br>and of the Unan<br>and of the Unan<br>and Declow<br>websiles of th<br><b>ड</b><br>1787<br>द, सार्कट<br>saic
apit<br>नी माह  | 9.13<br>Audi Commit<br>or the current<br>the Company<br>ritied quarter<br>re Requirem<br>8 Stock Esche<br>t, नई दि<br>al.co.in   
   
   | 34.66<br>se and appro<br>uniter and n<br>The unmodel<br>y fnancial R<br>nais Regulation<br>nges i.e. www<br>For and  | 20.64<br>wed by the B<br>me months a<br>lied raview re<br>esuits fied w<br>ones, 2015. T<br>xbseindia.cc<br>on the be<br>(Chairma  | 17.92<br>bard of Directorn<br>nded 31 Decem-<br>pert of the Statu<br>m the Stock Es<br>fail format of<br>m and www.new<br>half of Board<br>Yashovar<br>and Managi<br>D   | 61.50<br>s at its meeting<br>ther 2021 here<br>dary Auditors is<br>schenge under<br>the Unaudied<br>of Directors<br>offine Saboo<br>ing Director<br>IN-00012158  
   |  | 31 दिर्देश 2<br>उस्तेरपार<br>देवियानी से पायस<br>प्रवत्त्व<br>प्रवत्त्व<br>वन्द्र वीय<br>वन्द्र वीय<br>वन्द्र वीय<br>विषय<br>प्रवत्त्व<br>विषय<br>वन्द्र वीय<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>व्याप्त<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय<br>विषय  | 23 00 11<br>120 001<br>31 12 2023<br>0 00<br>10 00   | Incol         Incol           a         utRental           a         utRental     <   | Holden         Holden           VG         11         12           vol         12         12         12           1         12         230         90         266         63           230         90         266         63         497         53           191         72         60         1.20         2.00         0         0.00         7.08         112.46         319.06         1178         48         -         178.48         -         <   
   | TO           ennar H E au           ennar H E au           31.12.202           brann 12           12.599           42.41           788.40           612.63           19.92           7.59           0.000           2144           267.35           928.93           (160.53)  | a         255         32/2007           1         31.12.2020         0         (uclear:#18)           723.02         269.73         592.75           592.75         574.77         19.54           6.25         0.00         20.99           273.80         20.99         273.80           99.743         97.43         97.43   | uncertifiers in all           encore and           2           31.637.2027           a)           picture           1.224.67           1.224.67           2.35.28           0.00           2.35.21           0.00           2.79.38           1.224.67           1.225.20           0.00           2.799           4.33.47           1.252.00           (27.42)           (27.42)  
   |
| 155.bunda पर आपके पर था प्रेमेश पा अत्यारकार्याक्षे इत्याप्रे<br>प्रारंगिक वानावरी करनी की विश्वायुद्ध यानी अरुभ तकते हैं।<br>वारोग वानावरी करनी की विश्वायुद्ध यानी अरुभ त्याप्रेय हैं व<br>(www.sciendla.com) और नेमानत स्टीक एससींज वीश<br>(www.sciendla.com) और नेमानत स्टीक एससींज वीश<br>(www.sciendla.com) और नेमानत स्टीक प्रकार कि<br>तिर्वेश वानाकों के लिए, मुख्या करने वीशहर प्रा कांग्री सेक ट्रांक्य<br>हिल्ल पर संपर्ध करें।<br>स्टाय्स बेस्ट मिनेक्स प्र<br>स्टाय्स बेस्ट मिनेक्स प्र<br>स्टाय्स बेस्ट मिनेक्स प्र<br>स्टाय्स बेस्ट मिनेक्स प्र<br>स्टाय्स बेस्ट मिनेक्स प्र<br>क्या के प्रिक्स कांग्री  | अडोगातारदे com<br>inna la com और<br>में प्रेरण दिमिटेंद<br>होरण दिमिटेंद<br>होरण दिमिटेंद<br>र र र दे के मैं में स्वी<br>हरा र र र दे के मैं में स्वी<br>हरा र र दे के मैं में स्वी<br>सिंजा ई<br>रासवितास र<br>र cs@saica   | (c) C<br>Notes:<br>1. The ability<br>2. The ability<br>2. The ability<br>2. The ability<br>2. The ability<br>3. The ability<br>4. The ability  | Nuted (RS)<br>ove Unsudted fina<br>14 February 2024<br>detected United<br>Resetted United<br>Resetted United<br>Resetted United<br>States<br>States<br>Constant<br>States<br>Constant<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>State                                     |  
   
  | .49<br>aviewed by the<br>anciel results for<br>cohange<br>and of the Unan<br>and of the Unan<br>and Declow<br>websiles of th<br><b>ड</b><br>1787<br>द, सार्कट<br>saic
apit<br>नी माह  | 9.13<br>Audi Commit<br>or the current<br>the Company<br>ritied quarter<br>re Requirem<br>8 Stock Esche<br>t, नई दि<br>al.co.in   
   
   | 34.66<br>se and appro<br>uniter and n<br>The unmodel<br>y fnancial R<br>nais Regulation<br>nges i.e. www<br>For and  | 20.64<br>In a months a<br>led raview to<br>suits field a<br>ons. 2015 T<br>vbseindis.cc<br>on the be<br>(Chairma   | 17.92<br>bard of Directorn<br>nded 31 Decem-<br>pert of the Statu<br>m the Stock Es<br>fail format of<br>m and www.new<br>half of Board<br>Yashovar<br>and Managi<br>D   | 61.50<br>sat is meeting<br>the 2023 have<br>dary Auditons is<br>withings under<br>the Unaudited<br>infolio con and<br>of Directors<br>mig Directory<br>(NN-00012158)   
   |  | 31 दिर्देश 2<br>उस्तेराग<br>देवियानी से पायस<br>वाद्यवाली से पायस<br>वाद्यवाली से पायस<br>वाद्यवाली<br>क्रास्त के प्राप्त के<br>क्रास्त के प्राप्त के<br>का के का के का के<br>का के का के का के<br>का के का के का के का के का के<br>का के का के  | 23 07 11<br>180 04<br>31 12 2023<br>(char 45<br>306.49<br>377 310 26<br>205.37<br>6.63<br>3.32<br>0.00<br>7.14<br>8.430<br>3.60<br>3.50<br>3.50  | Inc.         Restort           2         TR201781           2         TR201781           3         2025           2         Defense flow           0         Defense flow           D  | Hogen         H           Vol sill His         Vol sill His           vol sill Algorithm         Sol Sill Algorithm           Sill 1220922         Sill 1220923           Sill 1220923         Sill 1220923           Sill 1220923         Sill 1220923           Sill 1220923         Sill 1220923           Sill 1220923         Sill 1200           1200         000           708         11246           178.48         -           178.48         -   
  | The second sec  | 1 08 37400<br>1 28 400<br>3 31.12.202<br>0 (advertise<br>723.02<br>269.73<br>992.75<br>574.72<br>19.54<br>6.22<br>0.00<br>27.3.60<br>20.99<br>27.3.60<br>97.43<br>97.43   | Socializaria         I         Intervent and<br>Intervent and<br>I (Intervention)           2         31.63.2022         2           31.63.2022         2         31.63.2022           2         31.63.2022         2           2         31.63.2022         2           2         2         31.63.2022           2         2         31.63.2022           1         2         32.62.61           2         31.63.2022         4           1         2         2           3         (27.42)         2           3         (27.42)         5.63           4         (21.42)         5.63   
   |
| 153.bumla ' पर आपदे स थे पा प्रेमेश पा अदराराजांक्रिआप<br>पर भरिष्मसर, 27 भर्षर, 2024 पा के प्रेमत सकते हैं।<br>प्रार्थेक वानावजी करेती की विसाद प्राणि भर्भ अवक्रीअपडेंस<br>प्रार्थेक प्रान्ताओं विसाद प्राणि भर्भ के क्रेस पूर्वे प्रेष्ठ हैं वा<br>(www anciculation) हा में प्राप्तव है।<br>अधिक वानानों के निरम, क्रेस माने की स्वार प्राप्त के क्रेस पूर्वे स्वार<br>(www anciculation) हिन्म, क्रेस माने की स्वार प्राप्त के क्रेस प्रियेक्स हैं<br>क्रिकिन वानाकों के निरम, क्रेस माने की स्वार प्राप्त के क्रेस प्रार्थेक्स<br>क्रिकिन वानाकों के निरम, क्रेस माने की स्वार प्राप्त के क्रेस प्रार्थेक<br>क्रिकिन वानाकों के निरम, क्रेस माने की स्वार प्राप्त के क्रेस प्रार्थेक<br>विक्रिक वानाकों के निरम, क्रेस माने के क्रिस प्रार्थ के क्रिस<br>दिन के प्रार्थ के क्रिस के क्रिक का क्रिकेस क्रिस<br>क्रिकेस 1982, 2023 के क्रिकेस क्रिकेस क्रिकेस क्रिकेस क्रिकेस क्रिकेस क्रिकेस क्रिकेस क्र<br>पर्यजी के क्रुत कार्यालय : जी–25, भूताल,<br>ई–मेल :<br>3<br>अप  | अवंशामात्रदे com<br>innacte com और<br>में विश्वार्थ निष्टेंद<br>होवा दिनिहेंद<br>southwestpinus-<br>के के आवानुषर<br>हरता /-<br>विवास वेम<br>रासविलास २<br>टर@saica<br>1 दिसंबर 20<br>दंखापरीक्षित 1   | (b) ट<br>Notes:<br>1.The being<br>2.The being<br>2.Th   | Nuded (R8)<br>ove Uraudiaed first<br>ove Uraudiaed Singles<br>and Constance 2010<br>over a first state<br>over a first st  | ا 10.<br>The module of for<br>The module of for<br>the module of for<br>the module of for<br>the module of the<br>the module of the module of the<br>the module of the<br>the module of the<br>the module of the module of the<br>the module of the module of the<br>the module of the<br>the module of the<br>the module of t  
   
   | .49<br>aviewed by the<br>ancial results for<br>rotange<br>and of the Unan<br>is and Declows<br>websiles of the<br>g<br>7887<br>द, साकेट<br>saicapit<br>जी माह   | 9.13<br>Audt Commit<br>or the company<br>the Company<br>rithe Company<br>re Requirement<br>as Stock Excha<br>t, नई दि<br>al.co.in<br>के<br>ाराश   
   
  | 34.66<br>se and appro<br>uniter and n<br>The unmodel<br>y fnancial R<br>nais Regulation<br>nges i.e. www<br>For and  | 20.64<br>two by the B<br>ne months is<br>south field with the south<br>south field with the south<br>state of the south field with<br>(Chairman<br>왕대) 입술 (Chairman<br>왕대) 입술 (Chairman   
  | 17.92<br>oard of Director<br>nied 31 Decempond<br>and the Stock Ex-<br>ter Ital format of<br>mand www.new<br>naif of Board<br>Yashovær<br>n and Managi<br>D  | 61.50<br>s at its meeting<br>fore 7021 here<br>indra your and the<br>working with the<br>line line of the line of the<br>line line of the line of the<br>line line of the line of the<br>line of the line of the line of the<br>line of the line of the line of the line of the<br>line of the line of the line of the line of the line of the<br>line of the line of the l  | XI<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>X  | 31 दिरहेर 2<br>उसले प्राप्त<br>प्राप्तान से पायल<br>वाज्य प्राप्तान से पायल<br>वाज्य प्राप्तान से पायल<br>वाज्य प्राप्त प्राप्ति प्राण्डित<br>प्राप्त प्राप्त प्राण्डिया<br>वाया प्राप्त प्राप्त<br>वाया प्राप्त प्राप्त  | 22 33 47 47 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49   
  | Inc.         Inc.         Inc.           2         21220171         Inc.           2         21220171         Inc.           30.01         30.01         2023           30.02         30.01         2023           30.01         227         27           38.84         265         91           212.42         212.42         212.42           30.90         0.00         710           105.65         303.90         (67.89)           (67.89)         (67.89)         -           (67.39)         3.222.74         (0.21)   | <b>1934</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>1937</b><br><b>19</b><br><b>19</b><br><b>19</b><br><b>19</b><br><b>19</b><br><b>1</b><br><b>1</b>   | 00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00   
   |   | 0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  |
| Sa.humid पर आपके पर पाएँ दिना पाउस्टरवामां विद्यालयां<br>पर्पालस, दर अपके 2004 जाने का जानते हैं।<br>पर्पालस कानके के सिंदा द्वारा सामें के प्रेश्व रही विद्य दें प्र<br>(स्रिप्त प्रसारकों के सामय) की प्रसार के प्रदेश रही विद्य दें प्र<br>(स्रिप्त प्रसारकों के सामय) की प्र<br>विद्य जानका के सिंदा क्रमा का रोक्सर की अदरावामांकों<br>के प्रभाव के प्रायम के सामय की अदरावामांकों<br>के सामय के सिंह सिंद के प्रायम के अदरावामांकों<br>के सामय के सामय की जाने<br>सामय प्रभाव के सामय की का प्र<br>के सामय के सामय की का प्र<br>के सामय के सामय की का प्र<br>के सामय के सामय के सामय के सामय<br>के सामय के सामय के सामय के सामय के सामय के सामय<br>के सामय के सामय के सामय के सामय के सामय के सामय<br>के सामय के सामय के सामय के सामय के सामय के सामय के सामय<br>के सामय के सामय<br>के सामय के सामय<br>के सामय के सा   | अडोगालदे com और<br>innal com और<br>देखि विभिन्ने<br>र प्रतेव माने मेस्स<br>उठाती स्वान<br>के के जाकनुस्वर<br>स्वान<br>स्वान<br>स्वान<br>सिंजाई<br>रासविलास स<br>र cs@saica<br>1 दिसंबर 202   | (c) C<br>Notes:<br>1. The bit<br>2. The diagonal<br>2. The diagonal<br>2. The diagonal<br>place: 1<br>Date: 1<br>E<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C  | Nuded (RS)<br>ove Unsudied fina<br>14 February 2020<br>Unsudient Di Iniversity<br>Market State<br>February 2020<br>United State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States<br>States | ا 10.<br>The module of for<br>The module of for<br>the module of for<br>the module of for<br>the module of the<br>the module of the module of the<br>the module of the<br>the module of the<br>the module of the module of the<br>the module of the module of the<br>the module of the<br>the module of the<br>the module of t   
   
  | .49<br>aviewed by the<br>ancial results for<br>rotange<br>and of the Unan<br>is and Declows<br>websiles of the<br>g<br>7887<br>द, साकेट<br>saicapit<br>जी माह  
  | 9.13<br>Audi Commit<br>or the current<br>the Company<br>ritied quarter<br>ran Requirem<br>8 Stock Esche<br>t, नई दि<br>al.co.in<br>को  
   | 34.66<br>ee and appro-<br>uniter and n<br>The unmodif<br>y financial R<br>main Regulation<br>rest in Regulation<br>rest in Regulation<br>rest in Regulation<br>For and<br>For and   
  | 20.64<br>wed by the B<br>no months a<br>led review rate<br>one, 2015 T<br>baselndia.cc<br>on the be<br>(Chairma  | 17.92<br>ourd of Directure<br>doed 31 Decempond 31 Decempond<br>of the State of the State<br>mand www.see<br>half of Baard<br>Yashovar<br>and Manage<br>cccli 1100<br>(stigs st v.   | 61.50<br>sat is meeting<br>the 2023 have<br>dary Auditons is<br>withings under<br>the Unaudited<br>infolio con and<br>of Directors<br>mig Directory<br>(NN-00012158)   | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2   
  | 31 दिर्देश 2<br>उस्तेरेपार<br>राजरण<br>प्रवारण के पावस्<br>वन्द्र वात्<br>वन्द्र वात्<br>वन्द्र वात्<br>वन्द्र वात्<br>वन्द्र वात्<br>विच्या<br>वन्द्र वात्<br>विच्या<br>वन्द्र वात्<br>विच्या<br>वन्द्र वात्<br>विच्या<br>वन्द्र वात्<br>विच्या<br>वन्द्र वात्<br>वन्द्र वात्<br>वत्त्र वात्<br>वन्द्र वात्<br>वत्त्र वात्<br>वत्त्य वात्<br>वत्त्य वात्त्य वात्त्य वात्त्य वात्य्य वात्य्य वात्त्य वात्त्य वात्य्य वात्य्य वात्त्य वात्य्य वात्य वात्य वात्य वात्य वात्य वात्य वा  | 23 57 66<br>1127 62<br>31,122023<br>4-10 - 12<br>30,646<br>3,77<br>310,25<br>205,37<br>3,52<br>000<br>3,52<br>0,7,14<br>84,30<br>3,55<br>3,55<br>3,55<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550<br>3,550   | Inc.         Rest Rest           2         172 (2017)           2         172 (2017)           3         130.023           2         120.223           2         120.223           2         120.223           2         120.223           2         121.242           6.64         1.36           0.000         7.10           105.65         333.90           (67.89)         (67.89)           (67.89)            (67.39)            3.222.74   | <b>H3447 H</b><br>Val 47 mar<br>op Statev<br><b>H4</b> defa<br><b>1312 2023</b><br>(converting<br>200, 90<br>266, 53<br>199, 172<br>200, 90<br>266, 53<br>199, 172<br>487<br>539, 00<br>10, 20<br>10, 20<br>1   
  | Total         Total           131.12.2022         0           123.12.2022         0           123.12.2022         0           123.12.2022         0           123.12.2022         0           123.12.2022         0           123.12.2022         0           19.922         7.59           0.000         21.44           267.355         928.93           (160.53)         (160.53)           (160.53)         -           13.222.74         -  |   | Societilities =1 st           unercon eff           2         31.83.2022           2         31.83.2022           1         25.83.2022           1         26.82           1         276.35           1         226.26           1         226.27           1         226.26           27.98         1.224.67           1         250.00  <   |
| Sh.Imila पर सगदेत गरे या देशन पाउस्तरमाओं(South) पर<br>पर्गलवार, 27 अपदे 100 का भेग ता ता का है।<br>पातील जानेकरी काने ती से साराहर या कि अपने से प्रदेश पुरीस ह या<br>(Sow Arisciala.com) और नेमानत सर्वे रहनां की संप्रे<br>अधिक अन्सादे कि पर कुरण कार तेमदर और संप्र द्वावा ह<br>वोक जनका के लिए कुरण कार तेमदर और संप्र द्वावा ह<br>वोक जनका के लिए कुरण कार तेमदर और संप्रत क्रांत<br>के स्पर्ध के स्टार्ट किन्दि वा क्रांत के सरकाराओं<br>पांजीवकृत कार्यालय : जी–25, भूतल,<br>ई–जेल :<br>वा विसल के सुल आय   | अध्योगतारदे com<br>innacia com और<br>में विश्वार्थ विशेष्ट<br>होवा विशिष्ठ<br>प्रवीर विशेष विशेष<br>क्रिया विशेष<br>हरहा /-<br>हिवास वेम<br>स्वाप्त सिंदन<br>संदाप विशेष विरेक्ष<br>सामिविलास २<br>ट टs@saica<br>1 दिसंबर 20<br>राखापरीहित 1<br>ममापरा हि  | (c) C<br>Notes:<br>1. The bit<br>2. The st<br>Regulation of the state of the st  | Nuded (R8)<br>ove Uraudided fra<br>14 February 2024<br>updated b Inited<br>updated b Inited<br>updated b Inited<br>updated b Inited<br>Not at the ended<br>inited and the ended<br>ini   | 10.<br>The insults were in<br>The insultation fills of the<br>this insultation of the distance Shore is<br>of the distance Shore is<br>the distance Shore is<br>of the distance Shore is<br>the  
   
   | .49<br>eviewed by the<br>ancial results to<br>investor<br>investor<br>investor<br>and of the Unan<br>investor<br>and of the Unan<br>investor<br>and Office<br>in and Dackous<br>investores of the<br>star of Dackous<br>investores of the<br>star | 9.13<br>Audi Commit<br>or the Company<br>indited quarter<br>free Requirement<br>Stock Exchan<br>I, नई दि<br>al.co.in<br>के<br>III   
   
  | 34.66<br>ee and appro-<br>unater and no mouth<br>of marcel R Regulation<br>for this Regulation<br>For and<br>For and   | 20.64<br>The months and the mean set of the mean   | 17.92<br>ourd of Directure<br>doed 31 Decempond 31 Decempond<br>out of the Subar<br>mand wawness<br>half of Baard<br>Yashovar<br>and Managa<br>cccll – 1100<br>(stigs st v.  
   | 61.50<br>s at 1s meeting<br>for 7021 here<br>for Auditors<br>indianou under<br>india com and<br>of Directors<br>dhan Saboo<br>india com and<br>of Directors<br>into Jone 1<br>100 Dir  | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1  | 31 दिर्देश 2<br>उन्हेंस्ट्रेस 2<br>उन्हेंस्ट्रेस 2<br>विषयानी से पायरस<br>वय वाद<br>वय वाद<br>वय वाद<br>प्रकृत तरद (111)<br>वर्ष्यालय से प्रकर्णना<br>प्रकृत कर्मा (111)<br>वर्ष्याय के स्टेन<br>क्रिस्ट के अपने क्रि<br>क्रिस्ट के प्रकर्ण<br>के क्रि<br>क्रिस्ट के प्रकर्ण<br>के क्रि<br>क्रिस्ट के प्रकर्ण<br>के क्रि<br>क्रिस्ट के प्रकर्ण<br>के क्र<br>के के क्र<br>के कि का करते<br>के क्र<br>के कि का करते<br>के क्र<br>के कि का करते<br>के क्र<br>के क्र<br>के कि का करते<br>के क्र<br>के क्र<br>के क्र<br>के क्र<br>के क्र<br>के के क्र<br>के के क्र<br>के के के के के के के के के<br>के के के के के के के<br>के के क  | 223 223 224 225 227 225 225 225 225 225 225 225 225  | uest lossed<br>or uR2004<br>for a uR2004<br>lossed<br>paids 2022 27<br>27 27<br>38 64<br>58 62<br>227 27<br>38 62<br>59 62<br>227 24<br>56 59<br>38 62<br>59 59<br>30 20<br>59 59<br>10<br>50 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>5  | Higheri H           19         172         201         301           10         172         201         301         201         301           201         00         201         301         201        
301         201         301         201         301         201         301         201         301         201         301         201         301         201         301         201         301         201         301         201         301         201         301         201   | 00         00           00         00           01         00           01         12           02         12           02         12           02         12           02         12           02         12           02         12           02         12           02         12           02         12           02         12           02         12           02         12           02         12           02         12           02         12           02         12           01         12           02         12           02         12           02         12           02         12           01         12           01         15           01         15           01         12           02         12  | <ul> <li>c es aceed</li> <li>c es aceed</li> <li>c es aceed</li> <li>c estatistica es aceed</li> <li>e estatistica estatistica es aceed</li> <li>e estatistica estatistica es aceed</li> <li>e estatistica estatistica estatistica estatistica es aceed</li> <li>e estatistica est</li></ul>  
   | continues or an           uneres of 23 163 2022           uneres of 24 163 2022 <td< td=""></td<>  |
| 151.html पर कारवेर गरे गा देशन पाउस्टरमात्रीखेळवाले<br>पर्गलबर, 27 फर्सल, 200 जर भेर जा जा हो 1<br>पारीज जानवंदी करनी की विद्याद गा जे के प्रेर गुरीब 2 मा<br>(www.bicindu.com) और मेमारा सांग स्वार गांव प्रसाध के<br>प्रेर के प्रकार के प्रकार के प्रदेश गुरीब 2 मा<br>कि नाव्य के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार प्रकार<br>कि नाव्य के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के<br>कि नाव्य के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के<br>कि नाव्य के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के<br>कि नाव्य के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार<br>कि नाव्य के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के<br>कि नाव्य के प्रकार के प्रकार<br>कि नाव्य प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार<br>के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार<br>के प्रकार के प्रकार<br>के प्रकार के प्रकार<br>के प्रकार के जा के प्रकार के प्रकार के प्रकार के जा का जा के प्रकार के जा के जा के जा के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के जा जा के जा जा का जा के   | अध्योगवादे com और<br>innaile.com और<br>में विश्वार्थ विशेष्ठ<br>होंगा विशेष्ठ<br>होंगा विशेष्ठ<br>र प्रदेश में में ब्लाइन्सर<br>हरता /-<br>विश्वार्थ के आवानुसर<br>हरता /-<br>विश्वार्थ के क्याइन्सर<br>हरता /-<br>विश्वार्थ के क्याइन्सर<br>स्वा /-<br>सिंगाई<br>रासविद्यास र<br>ट्राउट्याइयादगीविद्या<br>विश्वार्थ के क्याइन्सर<br>स्वा /-<br>स्वा के क्याइन्सर<br>स्वा /-   | (c) C<br>Notes:<br>1. The bid of<br>being<br>2. Too at<br>Reput<br>2. Too at<br>Re | Nulded (RS)           ove Uraudided frances           14 February 2020           14 February 2020           Reserve to RS           O.00   | 10.<br>The includes fin in-<br>The includes fin in-<br>the includes fin in-<br>the includes fin in-<br>the includes of the includes fin in-<br>of the detailed them<br>of the detailed them<br>includes includes in-<br>the includes includes in-<br>includes includes includes in-<br>includes includes includes in-<br>includes includes includes in-<br>includes includes includes includes in-<br>includes includes includes includes includes in-<br>includes includes includes includes includes in-<br>includes includes  
   
  | .49<br>adversed by the<br>ancial results is<br>ancial results is<br>change<br>and of the Unan<br>is and Dactour<br>is websites of the<br>TRS7<br>इ. साकेट<br>saicapit<br>जी माइ<br>माँ देश<br>( स. 2005<br>( क्रि.90)   | 9.13<br>Audi Committi<br>of Hocarrott<br>Audi Computy<br>added quarter<br>the Computy<br>the Computy<br>th   
   
   | 34.66<br>ee and spop<br>the unmodel<br>the unmodel<br>y francesi Re<br>For and<br>For and<br>with<br>with<br>with<br>statute<br>peleentities   | 20.64<br>20.64<br>the months filed<br>south filed<br>on a price<br>and the bee<br>(Chairman<br>Refu] filed<br>Refu] filed<br>Refu[filed<br>Refu] filed<br>Refu[filed<br>Refu] filed<br>Refu[filed<br>Refu] filed<br>Refu[filed<br>Refu] filed<br>Refu[filed<br>Refu] filed<br>Refu[filed<br>Refu] filed<br>Refu[filed<br>Refu] filed<br>Refu[filed<br>Refu] filed<br>Refu[filed<br>Refu] filed<br>Refu] filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed<br>Refu<br>filed   | 17.92<br>overti of Directure<br>redded 31 Decempoint<br>of the Stock Ex-<br>mand waw.see<br>half of Baard<br>Yashover<br>and Managa<br>D<br>cccfl—1100<br>(stries-st v.<br>fr Hig<br>gebaretiler)  
   | 61.50<br>sails meeting<br>for 2021 here<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>indravoutients<br>in  | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1  | 31 दिरेहर 2<br>उस्तेरपार<br>प्रिया के प्रायम<br>प्रायम के प्रायम<br>के के का<br>के के का<br>प्राय प्रायम के प्रायम<br>के के का का<br>मुख्य प्रायम के का<br>मुख्य प्रायम के का<br>मुख्य प्रायम के का<br>मुख्य प्रायम के का<br>मा का के कि का<br>मा का कि का की<br>मा का कि का की का<br>मा का कि का की का<br>मा का कि का की का मानते,<br>का का कि का की का मानते,<br>का का की का की की का मानते,<br>का का की का का की की का मानते,<br>का का की का का की की का मानते,<br>का का की का का का की की का मानते,<br>का का की का का की की का मानते,<br>का का की का का का की की का मानते,<br>का का की का का का की की का मानते,<br>का का की का का का का की की का मानते.   | 223 e3 fer<br>hiter (Rr)<br>31,12,2022 (2<br>247 - 45<br>205,27<br>205,27<br>205,27<br>3,50<br>3,50<br>3,50<br>3,50<br>3,50<br>3,50<br>3,50<br>3,50  | series 6327014<br>et al.
1120001<br>11200000<br>1227272<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>221242<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>22124<br>2   | Fig4rel FH           Vig4 FH   | 10         1112 2022           1112 2022         1112 2022 <tr< td=""><td><ul> <li>e es aceer</li> <li>e es a la esta aceer</li> <li>e es a la esta aceer</li> <li>e esta aceer</li> <li>e ac</li></ul></td><td>continue n et unexe et 23 1.63 2022         23 1.63 2022           et unexe et al. 23 1.63 2022         23 1.63 2022           et unexe et al. 23 1.63 2022         27 1.63 2022           1 2.24 6.63 6.02         29 59 202           1 2.24 6.73 7.02         27 1.93 2022           1 2.24 6.73 7.02         27 1.93 2022           1 2.24 6.73 7.02         27 4.23 2.22           1 2.24 6.73 7.23 7.23 2.22         27 4.23 2.23 7.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2</td></tr<>  
   | <ul> <li>e es aceer</li> <li>e es a la esta aceer</li> <li>e es a la esta aceer</li> <li>e esta aceer</li> <li>e ac</li></ul>  | continue n et unexe et 23 1.63 2022         23 1.63 2022           et unexe et al. 23 1.63 2022         23 1.63 2022           et unexe et al. 23 1.63 2022         27 1.63 2022           1 2.24 6.63 6.02         29 59 202           1 2.24 6.73 7.02         27 1.93 2022           1 2.24 6.73 7.02         27 1.93 2022           1 2.24 6.73 7.02         27 4.23 2.22           1 2.24 6.73 7.23 7.23 2.22         27 4.23 2.23 7.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2  |
| 55.html पर कार्यट करें पाईना पाइन्टरामीखेंड्रआणि पर<br>पर्गलार, 27 महर्गत, 200 जर के जा कार्य हो ।<br>परीक जानकों करेंगी की क्याइट मार्ग कर 200 लुसे हु के<br>रिफल अपने की कहार जा करने के उपर लुसे हु के<br>प्रिक्त जानकों के लिए जुस्पा हम्में तीक्यर जा के<br>की जिन जानकों के लिए जुस्पा हम्में तीक्यर जा के प्रदान<br>कि जिन जानक की ।<br>स्वरूप होया प्रदर्शन निरिदेश मा क्यंने से secretarial<br>दिक जा पर साम करें।<br>स्वरूप होया प्रदर्शन निरिदेश मा क्यंने से secretarial<br>दिक जा पर साम करें।<br>स्वरूप हेटा प्रदेश के जानकों<br>स्वरूप होया प्रदर्शन निर्मेश कर की<br>स्वरूप होया प्रदर्शन निर्मेश कर की<br>अपने के कि का का की की कि का की<br>से साम कि का का की की कि का की कि का की की कि का की<br>से साम कि का का की की कि का की कि का की की कि का की की कि का की<br>से साम की की की कि का की   | अध्योगतार्थं, com और<br>innaile.com और<br>वीच्या विषयहां<br>हाच्या विषयहां<br>southwestpinta-<br>केंद्र के जावनुषर<br>हला/-<br>किंवल वी-<br>किंवल वी-<br>किंवल वी-<br>हिंदा परिवास<br>रासविलास स्<br>: cs@saica<br>1 दिसंबर 20<br>राखापरीहित 1<br>-<br>  | (c) C<br>Notes:<br>1.The bing<br>2.The at<br>parts 1.The bing 2.The bing 2.The bing 2.The bing 2.The bing<br>2.The bing 2.The bin   | Nuded (R8)<br>ove Unsudded fina<br>14 February 2020<br>Unsudential Dinkwary 2020<br>Related Dinkwary 2020<br>Related Dinkwary 2020<br>Relation 23 of the SEB<br>Office Relation 2020<br>Relation   | 10.           ndd raadia ween to           The module softs           The module softs           The module softs           Alama State           Vision Obligation           Specific Difference           Specific Difference <tr< td=""><td>49<br/>deceed by the<br/>acceleration of the<br/>tory Auditors of<br/>tory Auditors of<br/>tory Auditors of<br/>tory Auditors of<br/>tory Auditors of<br/>tory Auditors of<br/>the<br/>tory Auditors of the<br/>tory Auditors of<br/>the<br/>tory Auditors of the<br/>tory Auditor</td><td>9.13<br/>Audi Commit<br/>or Mecurrel<br/>He Company<br/>and Quarter<br/>Requirements<br/>Stock Exchanges<br/>Stock Exchanges<br/>Stock Exchanges<br/>(Stock Exchanges)<br/>(Stock Exchanges)<br/>(Stock</td><td>34.66<br/>ee and spon<br/>suster and not not unsult<br/>by financial Re<br/>y families in weather<br/>For and<br/>eccel), दी<br/>,</td><td>20.64<br/>20.64<br/>En moths for view re-<br/>suits field with the second second</td><td>17.92<br/>coard of Disedent<br/>ded 31 Decem<br/>order 1 the Sillard<br/>m the Stock Ex-<br/>mad www.nee<br/>half off Board<br/>Yashovær<br/>n and Manage<br/>Creft – 1100<br/>(striærs) v.</td><td>61.50<br/>sails meeting<br/>ther 2021 here<br/>for Audions<br/>inclusion under<br/>the Unaudion<br/>india com and<br/>of Directors<br/>rights Saboo<br/>ing Directory<br/>INN-00012158</td><td>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1</td><td>31 दिरहेर 2<br/>उसले प्राप्त के किस्ट के क</td><td>223 35 fer<br/>hiere faiter<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,2023<br/>(21)<br/>31,12,203<br/>(21)<br/>31,12,203<br/>(21)<br/>31,12,203<br/>(21)<br/>31,12,203<br/>(21)<br/>31,12,203<br/>(21)<br/>31,12,203<br/>(21)<br/>31,500<br/>(21)<br/>31,500<br/>(21)<br/>31,500<br/>(21)<br/>31,500<br/>(21)<br/>31,500<br/>(21)<br/>31,500<br/>(21)<br/>31,500<br/>(21)<br/>31,500<br/>(21)<br/>31,500<br/>(21)<br/>31,500<br/>(21)<br/>31,500<br/>(21)<br/>(21)<br/>(21)<br/>(21)<br/>(21)<br/>(21)<br/>(21)<br/>(21)</td><td>Sec 362000<br/>2 stillen<br/>2 stillen</td><td>Fig.44         14           Vig.4         12           Vig.4         12     <td>10         even           even         f. 200           generative         f. 200           f.2112.222         f.2112.222           f.2112.222         f.2112.222           f.212.222         f.2112.222           f.101.222         f.2112.222           f.101.202         f.101.202           f.101.202         f.101.202</td><td>t ers sover<br/>1 d es<br/>1 d es<br/>1 d 1 2 3 112.23<br/>2 89.77<br/>1 95.75<br/>1 95.75</td><td>2008/09/04 4 eff<br/>19 encer of<br/>29 1/32 2022 2 1/32 2022 2 1/32 2022 2 1/32 2022 2 1/32 2022 2 1/32 2
1/32 2 1/32</td></td></tr<> | 49<br>deceed by the<br>acceleration of the<br>tory Auditors of<br>tory Auditors of<br>tory Auditors of<br>tory Auditors of<br>tory Auditors of<br>tory Auditors of<br>the<br>tory Auditors of the<br>tory Auditors of<br>the<br>tory Auditors of the<br>tory Auditor  | 9.13<br>Audi Commit<br>or Mecurrel<br>He Company<br>and Quarter<br>Requirements<br>Stock Exchanges<br>Stock Exchanges<br>Stock Exchanges<br>(Stock Exchanges)<br>(Stock   
  | 34.66<br>ee and spon<br>suster and not not unsult<br>by financial Re<br>y families in weather<br>For and<br>eccel), दी<br>,  
   | 20.64<br>20.64<br>En moths for view re-<br>suits field with the second  | 17.92<br>coard of Disedent<br>ded 31 Decem<br>order 1 the Sillard<br>m the Stock Ex-<br>mad www.nee<br>half off Board<br>Yashovær<br>n and Manage<br>Creft – 1100<br>(striærs) v.  | 61.50<br>sails meeting<br>ther 2021 here<br>for Audions<br>inclusion under<br>the Unaudion<br>india com and<br>of Directors<br>rights Saboo<br>ing Directory<br>INN-00012158   | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1  | 31 दिरहेर 2<br>उसले प्राप्त के किस्ट के क   | 223 35 fer<br>hiere faiter<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,2023<br>(21)<br>31,12,203<br>(21)<br>31,12,203<br>(21)<br>31,12,203<br>(21)<br>31,12,203<br>(21)<br>31,12,203<br>(21)<br>31,12,203<br>(21)<br>31,500<br>(21)<br>31,500<br>(21)<br>31,500<br>(21)<br>31,500<br>(21)<br>31,500<br>(21)<br>31,500<br>(21)<br>31,500<br>(21)<br>31,500<br>(21)<br>31,500<br>(21)<br>31,500<br>(21)<br>31,500<br>(21)<br>(21)<br>(21)<br>(21)<br>(21)<br>(21)<br>(21)<br>(21)   
   | Sec 362000<br>2 stillen<br>2 stillen  | Fig.44         14           Vig.4         12           Vig.4         12 <td>10         even           even         f. 200           generative         f. 200           f.2112.222         f.2112.222           f.2112.222         f.2112.222           f.212.222         f.2112.222           f.101.222         f.2112.222           f.101.202         f.101.202           f.101.202         f.101.202</td> <td>t ers sover<br/>1 d es<br/>1 d es<br/>1 d 1 2 3 112.23<br/>2 89.77<br/>1 95.75<br/>1 95.75</td> <td>2008/09/04 4 eff<br/>19 encer of<br/>29 1/32 2022 2 1/32 2022 2 1/32 2022 2 1/32 2022 2 1/32 2022 2 1/32</td> | 10         even           even         f. 200           generative         f. 200           f.2112.222         f.2112.222           f.2112.222         f.2112.222           f.212.222         f.2112.222           f.101.222         f.2112.222           f.101.202         f.101.202  | t ers sover<br>1 d es<br>1 d es<br>1 d 1 2 3 112.23<br>2 89.77<br>1 95.75<br>1 95.75   | 2008/09/04 4 eff<br>19 encer of<br>29 1/32 2022 2 1/32 2022 2 1/32 2022 2 1/32 2022 2 1/32 2022 2 1/32   
   |
| 153. http:// पर कार्यट कर्म पा दिनंग पा अटररटामा विद्रेशकाणि<br>पर गरिकार, उप रुप कर्म, 2004 जर के पा कार्य हों।<br>पारीज जानकों के साथ हो पा कार्य कर रही हैं।<br>पारीज जानकों के साथ हुआ हो के देश रही राज्य हों।<br>विक्र अन्सरावे कि साथ हुआ हो के देश रही राज्य हों।<br>विक्र अन्सरावे कि साथ हिला है।<br>विक्र कर राज्य करने के साथ ही कि राज्य के साथ<br>विक्र कर राज्य करने कि साथ होना की साथ होना<br>के साथ है कि राज्य के साथ कि साथ के साथ कि साथ कि<br>साथ प्रकार के साथ के साथ के साथ कि साथ कि साथ कि<br>साथ प्रकार के साथ कि साथ के साथ कि साथ कि साथ की साथ कि<br>साथ प्रकार के साथ के साथ के साथ के साथ कि साथ के साथ कि<br>साथ प्रकार के साथ के साथ के साथ के साथ कि साथ के साथ की साथ कि साथ के साथ की  | estpinancia.com और<br>innacia.com और<br>में पिरार्थ विमेरेड<br>इरिजा विमेरेड<br>र एजेंद यही विमेरेड<br>र एजेंद यही में बार<br>स्वार्थ विमेरेड<br>र एजेंद यही में बिसक<br>र एवं यहां निरेत्रक<br>र र प्राप्त<br>र र जिला र प्राप्त<br>र र र ते र र र र र र र र र र र र र र र र   | (c) C<br>Notes:<br>1. The bit<br>1.  | Nuded (R8)<br>ove Unaudided fina<br>ove Unaudided fina<br>updated U inface<br>over the Unaudided fina<br>updated U inface<br>over the Unaudided<br>over the Unaudided<br>Content of the Unaudided  | 10.<br>nida results seen to<br>The anatured the Statu<br>seen to the Statu<br>seen to the Statu<br>seen to the Status of the<br>seen to the Status of the<br>second second second second<br>second second second second<br>second second second second<br>second second second second<br>second second second second second<br>second second second second second second<br>second second second second second second second<br>second second second second second second<br>second second second second second second second second<br>second second second second second second second second<br>second second seco  
   
   | .49<br>eviewed by the<br>ancial results to<br>ancial results to<br>ancial results to<br>another the Unan<br>evidence of the<br>star of Declose<br>to and Declose<br>to  | 9.13<br>Aug Company<br>the Company<br>t   
   
  | 34.66<br>ee and appro-<br>uister and normality in the united<br>the united of the united<br>of the united of the united<br>of the united of the  | 20.64<br>20.64<br>20.64<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20.05<br>20 | 17.92<br>and of Disector<br>model 31 Caccion<br>and www.nee<br>half of Baard<br>yashovar<br>a and Managi<br>D<br>cccfl—1100<br>(ation-3 v.   | 61.50<br>sait is reading<br>the 1020 here<br>the 1020 her   | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1  | 31 दिरेहर 2<br>उन्हेंस्ट्रेस 2<br>उन्हेंस्ट्रेस 2<br>विषय के स्वित्र के मानस्क<br>वन्द्र वाद के मानस्क<br>वन्द्र वाद के स्वित्र के स्व<br>वन्द्र वाद के स्वित्र के स्व<br>क्रम्स के स्व<br>क्रम्स्स के स्व<br>क्रम्स  | 222 33 67 67
7<br>https://doi.org/10.1000/10.1000<br>31.12.2022<br>0.000-000<br>3.177<br>310.26<br>205.377<br>310.26<br>6.33<br>3.777<br>310.26<br>6.33<br>3.750<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.5000<br>3.5000<br>3.   | sec: 652701<br>g uffentil<br>g uffentil  | Fig.44         14           Via 31         12           Via 10         12           Via 11         13           Via 11         13           Via 11         13           Via 11         14           Via 11<  | Compared and a second sec  
   | t ers ander<br>1 9 ers<br>1 9 112 202<br>2 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  | coolidans a di<br>unese di<br>2 14.05 app.         unese di<br>2 14.05 app.           di l'unifatti<br>di l'ante di<br>2 26 22<br>2 26 26<br>2 26<br>2<br>26<br>2<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26 |
| 15humbi पर कारवेट करें या देशन पाउस्टरकार्याख्येड्रआणे पर कारवेट करें या देशन कारवे हैं। यात्राज जानवे करने की कारवाय कारवे हैं। यात्राज जानवे करने की कारवाय करने हैं। यात्राज जानवे करने की कारवाय करने के कारवाय करने कारवाय करनाय करने कारवाय करनाय कराय कारव कारवाय करनाय कराय कारवाय करनाय करनाय कारवाय कराय कराय कारव कारव कारव कारव कार  | अयोगतारे तथा है।<br>गानदा दि उपा जे हैं न<br>गानदा दि उपा जे हैं न<br>योग दिमेरिंद<br>देविया दिमेरिंद<br>द्विया दिमेरिंद<br>द्विया दिमेरिंद<br>प्रदी यागे दिमेरिंद<br>हरा/-<br>तिवास वेन<br>प्रदी यागे दिसे<br>रासविलास प्<br>रासविलास प्   | (c) C<br>Notes:<br>1. The bit<br>1.  | Nuded (R8)<br>ove Unaudided fina<br>ove Unaudided fina<br>ove Unaudided fina<br>valencial Difference<br>Network (Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network)<br>(Network   | 10.<br>ndal results web er<br>The modded for<br>web setting to the setting to the<br>of the detailed them<br>of the detailed them<br>the detailed them<br>the detailed them<br>the detailed them<br>the detailed them<br>the detailed them<br>the detailed the detailed<br>the detailed the detailed<br>the detailed the detailed<br>the detailed the detailed<br>the detailed the detailed the<br>the detailed the detail the detailed the<br>the detailed the detailed the detailed the<br>the detailed the detai   
   
   | .49<br>eviewed by the<br>ancial results to<br>ancial results to<br>ancial results to<br>another the Unan<br>evidence of the<br>star of Declose<br>to and Declose<br>to  | 9.13<br>Aud: Commit<br>to Hoomen<br>In Company<br>Into C  
   
  | 34.66<br>ee and appro-<br>time unstantiation of the unstantiation<br>of the unstantiation of the unstantiation<br>of the unstantiation of the unstantiation<br>of the unstantiation of the unstantistic of the unstantiation of the unstantiation of the unstan   | 20.64<br>20.64<br>20.64<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20.75<br>20 | 17.92<br>overti of Directurn<br>oded 31 Decempoint<br>of the State of Decempoint<br>of the State of Decempoint<br>of the State of Decempoint<br>and Wave of the State<br>and Blanging<br>ceedl—1100<br>(stries-state<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state)<br>(stries-state) | 61.50           s at its meeting<br>fore 2021 here<br>individualities its<br>individualities its<br>inditationits<br>inditationities its<br>inditationits<br>individualits<br>indivi   | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1  | 31 दिरेहर 2<br>उस्तेरेपार<br>प्राप्त में प्राप्त के के प्राप्त के प्राप्त के के प्राप्त के प्  
   | 222 33 57 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17   | series 632000     series 64200     series 6420     serie   | Fig.44         14           VG - 51         16           VG - 52         178           VG - 70         100           VG - 70   | Compared and a second sec  
   | 1 08 x2000           1 311.222           2 000           1 311.222           2 000           2 000           3 000  | societitaria el al           unerce el al           apprese el all'anteritaria           a)  |
| 15%. Intell पर अगरेंद गरें गा देशन पांडरत्यांगांडेंड्राज्यांग पर अगरेंद गरें गा देशन पांडरत्यांगांडेंड्राज्यां पर भगरेंदा 20 अपने के 20 रही हैं के 20 रही है  | estiplinated.com<br>innatic.com और<br>4 विश्वार्थ विशेष्ठ<br>होरण विशेष्ठ<br>होरण विशेष्ठ<br>हारण विशेष<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार   | (c) C<br>Notes:<br>1. The bit<br>2. Print at<br>2. P   | Nuled (R8)<br>ove Uraudied fra<br>14 February 2022<br>depicted U links<br>over the entradiance of the<br>depicted U links<br>over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links<br>over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links<br>over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links<br>over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links<br>over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links<br>over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links<br>over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links over it the entradiance of   | 10.<br>rdal results web re<br>The module of the<br>the module of the module of the<br>the module of the module of the<br>the module of the module of the module of the<br>the mo   
   
   | .49<br>aviewed by the<br>ancial results is<br>ancial results is<br>ancial results is<br>ancial results is<br>another the Unan<br>is and Daclous<br>is   | 9.13         Акай Солтай           Акай Солтай         На Солтай           Кай Солтай <td< td=""><td>34.66<br/>ee and appro-<br/>autore and a memory of the unmouth<br/>the unmouth Regulations of the unmouth<br/>Regulation Regulations of the unmouth<br/>recently, effective and the unmouth<br/>recently and the unmouth<br/>r</td><td>20.64<br/>20.64<br/>20.64<br/>20.64<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20</td><td>17.92<br/>ourd of Directure<br/>odd 31 Decempoint<br/>of the Stock Ex-<br/>tension of the Stock Ex-<br/>(at ites \$ v. )<br/>1148.01<br/>769.29<br/>512.34</td><td>61.50 s at its meeting<br/>for 2021 here<br/>individualities in<br/>individualities in<br/>individualitie</td><td>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1</td><td>31 स्टिस्ट 2<br/>उसले प्राप्त<br/>प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के कि<br/>प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के कि<br/>मुंख ताकर (-11)<br/>प्राप्त कर के प्राप्त के कि कि</td><td>228 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27</td><td>serie 6.6271/62<br/>g vričenski<br/>serie 0.666<br/>serie 0.666<br/>serie 0.666<br/>serie 0.666<br/>serie 0.666<br/>serie 0.666<br/>serie 0.666<br/>serie 0.667<br/>serie 0.667</td><td>Figler         14           Viel Sill         12           Viel Sill         178           Viel Sill         18           Viel Sill         18           Viel Sill         18</td><td>10         even 4 £ so           even 4 £ so         even 4           even 4         so           13.12.222         13.12.222           14.241         19.52           19.52         27.59           20.27         29.92           20.27         29.92           20.27         19.92           20.27         19.92           20.27         19.92           20.27         19.92           20.27         19.92           20.27         19.92           10.60.53)         (160.53)           (160.53)         (160.53)           (150.53)         10.22           (150.53)         10.92           (150.53)         10.92           (150.53)         10.92           (150.53)         10.92           (150.53)         10.92           (150.53)         10.92           (150.53)         10.92           (150.53)         10.92           (150.53)         10.92           (150.53)         10.92           (150.53)         10.92           (150.53)         10.92           (150.53)         10.92           (</td><td>e eer acteur<br/>+ eer acteur<br/>1 3 11.2.225<br/>2
3 12.2.25<br/>2 3 12.2.25<br/>2 400 72<br/>2 400 72<br/>2 400 72<br/>2 400 72<br/>2 400 72<br/>4 50 72<br/>4</td><td>cooldbar a gi           unce di 23 133322           2 3133222           2 313322           2 313322           2 313322           2 313322           2 313322           2 313322           2 313322           2 313322           2 313322           2 31332           1 2 24 61           <t< td=""></t<></td></td<>  | 34.66<br>ee and appro-<br>autore and a memory of the unmouth<br>the unmouth Regulations of the unmouth<br>Regulation Regulations of the unmouth<br>recently, effective and the unmouth<br>recently and the unmouth<br>r   | 20.64<br>20.64<br>20.64<br>20.64<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20 | 17.92<br>ourd of Directure<br>odd 31 Decempoint<br>of the Stock Ex-<br>tension of the Stock Ex-<br>(at ites \$ v. )<br>1148.01<br>769.29<br>512.34   | 61.50 s at its meeting<br>for 2021 here<br>individualities in<br>individualities in<br>individualitie  | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1  | 31 स्टिस्ट 2<br>उसले प्राप्त<br>प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के कि<br>प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के कि<br>मुंख ताकर (-11)<br>प्राप्त कर के प्राप्त के कि   
   | 228 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27  | serie 6.6271/62<br>g vričenski<br>serie 0.666<br>serie 0.666<br>serie 0.666<br>serie 0.666<br>serie 0.666<br>serie 0.666<br>serie 0.666<br>serie 0.667<br>serie 0.667   | Figler         14           Viel Sill         12           Viel Sill         178           Viel Sill         18           Viel Sill         18           Viel Sill         18  
  | 10         even 4 £ so           even 4 £ so         even 4           even 4         so           13.12.222         13.12.222           14.241         19.52           19.52         27.59           20.27         29.92           20.27         29.92           20.27         19.92           20.27         19.92           20.27         19.92           20.27         19.92           20.27         19.92           20.27         19.92           10.60.53)         (160.53)           (160.53)         (160.53)           (150.53)         10.22           (150.53)         10.92           (150.53)         10.92           (150.53)         10.92           (150.53)         10.92           (150.53)         10.92           (150.53)         10.92           (150.53)         10.92           (150.53)         10.92           (150.53)         10.92           (150.53)         10.92           (150.53)         10.92           (150.53)         10.92           (150.53)         10.92           (  | e eer acteur<br>+ eer acteur<br>1 3 11.2.225<br>2 3 12.2.25<br>2 3 12.2.25<br>2 400 72<br>2 400 72<br>2 400 72<br>2 400 72<br>2 400 72<br>4 50 72<br>4   | cooldbar a gi           unce di 23 133322           2 3133222           2 313322           2 313322           2 313322           2 313322           2 313322           2 313322           2 313322           2 313322           2 313322           2 31332           1 2 24 61 <t< td=""></t<>   |
| Sh.Intali पर अगरेंद गरें या दीनंग पांडरररामां क्रिंडिआपी पर<br>गर्गलरा, 27 फर्नला, 28 पर गरे भा वा को है।<br>गराज जानदारी कमेंनी की विद्याद गांवे भार अंदर सुर्ववा ह या<br>(अफ प्रे bactala.com) और मेनार होना रसावे के स्वर सुर्ववा ह य<br>के स्वर प्रकार के सुर क्रांद प्रती हिंदा के स्वर सुर्ववा ह या<br>विक्रेज जानदार के सिंह कुवा हमर्थ के सुराद कर में के दास्त<br>विक्रेज जानदार के सिंह कि प्रकार के स्वर निवार के स्वर सिंह कर<br>विक्रेज जानदार के सिंह कि प्रकार के स्वर निवार<br>के स्वर के स्वर कि के सुर क्या हमर्थ के सुराद के से क्रंदा कर<br>के स्वर कि स्वर के स्वर कि स्वर के स्वर सिंह कर स्व<br>के स्वर कि स्वर के स्वर के स्वर कि स्वर के स्वर कि स्वर स्वा<br>के स्वर के स्वर कि स्वर के स्वर<br>के स्वर के स्  | evelpinancia com और<br>innacia com और<br>altern ladvest fabbles<br>altern ladvest fabbles<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwestpina-<br>isouthwe  | (c) C<br>Notes:<br>1. The bit<br>2. Print at<br>2. P   | Nuled (R8)<br>ove Uraudied fra<br>14 February 2022<br>depicted U links<br>over the entradiance of the<br>depicted U links<br>over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links<br>over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links<br>over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links<br>over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links<br>over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links<br>over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links<br>over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links over it the entradiance of   | 10.       
   
   | .49<br>aviewed by the<br>ancial results is<br>ancial results is<br>ancial results is<br>ancial results is<br>another the Unan<br>is and Daclous<br>is   | 9.13<br>Audi Commit<br>or Mecurrel<br>He Company<br>and Quarter<br>Requirements<br>Stock Exchanges<br>Stock
Exchanges<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Networks<br>Netwo   
   | 34.66<br>ee and appro-<br>unities and appro-<br>ties united and its united<br>of the united of the the united of the united of the united<br>of the united of the united of the united of the united of the united<br>of the united of the   |
20.64<br>20.64<br>20.64<br>20.64<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20 | 17.92 oran of Diseden deg 31 Decem order 31 Decem o   | 61.50<br>s at 1s meeting<br>ther 7021 here<br>for 7021 here<br>for Auditors<br>inclusion under<br>india com and<br>india com<br>india co   | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1  | 31 दिरेहर 2<br>उसरेपास<br>से विश्वण<br>प्रियाल के प्रावस<br>के का स्व<br>के का स्व<br>का स्व<br>के का स्व<br>का स्व                                  | 222 23 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27   | serie 6.627.01<br>g vričenski<br>s vričenski<br>s vričenski<br>1207.27<br>2207.27<br>238.64<br>238.64<br>265.51<br>121.64<br>265.51<br>121.64<br>265.51<br>121.64<br>265.51<br>121.64<br>265.51<br>121.64<br>265.51<br>121.64<br>265.51<br>121.64<br>265.51<br>121.64<br>265.51<br>121.64<br>265.51<br>121.64<br>265.51<br>121.64<br>265.51<br>121.64<br>265.51<br>121.64<br>265.51<br>121.64<br>265.51<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.751<br>201.75   | Figler         14           Value         17           Value         17 <td>10         ever # £ ino           ever # £ ino         ever #           ever #         ino           735 99         ino           735 90         ino           19 52        
7.59           20 20         214 44           19 52         7.59           20 20 20         214 44           19 52         7.59           20 20 20         214 44           19 52         7.59           20 20 20         214 44           19 52         7.59           20 20 20         214 44           10 50         100           10 50         100           10 50         100           10 50         100           10 50         100           10 50         100           10 50         100           10 50         100           10 50         100           10 50         100           10 50         100           10 50         100           10 50</td> <td>e ers active<br/>+ eve<br/></td> <td>continues a di autori         unces di autori           y ante di autori         13.3322           21.33322         21.33322           11.224.61         22.22           12.24.61         22.22           12.24.61         22.74.33           12.24.61         22.74.33           12.24.61         22.74.33           12.24.61         22.74.33           12.24.61         22.74.33           12.24.61         22.74.33           12.24.61         22.74.33           12.24.61         22.74.33           12.24.61         22.74.33           12.24.61         22.74.33           12.24.61         22.74.33           12.24.61         22.74.33           12.24.61         22.74.33           12.24.61         22.74.33           13.22.74         (0.07)           10.37.75         20.22.74           10.37.75         20.22.74           10.37.75         20.22.74           10.37.75         20.22.74           10.37.75         20.22.74           10.37.75         20.22.74           10.37.75         20.22.74           10.37.75         20.22.74           10.37.75</td>   | 10         ever # £ ino           ever # £ ino         ever #           ever #         ino           735 99         ino           735 90         ino           19 52         7.59           20 20         214 44           19 52         7.59           20 20 20         214 44           19 52         7.59           20 20 20         214 44           19 52         7.59           20 20 20         214 44           19 52         7.59           20 20 20         214 44           10 50         100           10 50         100           10 50         100           10 50         100           10 50         100           10 50         100           10 50         100           10 50         100           10 50         100           10 50         100           10 50         100           10 50         100           10 50   | e ers active<br>+ eve<br>   
   | continues a di autori         unces di autori           y ante di autori         13.3322           21.33322         21.33322           11.224.61         22.22           12.24.61         22.22           12.24.61         22.74.33           12.24.61         22.74.33           12.24.61         22.74.33           12.24.61         22.74.33           12.24.61         22.74.33           12.24.61         22.74.33           12.24.61         22.74.33           12.24.61         22.74.33           12.24.61         22.74.33           12.24.61         22.74.33           12.24.61         22.74.33           12.24.61         22.74.33           12.24.61         22.74.33           12.24.61         22.74.33           13.22.74         (0.07)           10.37.75         20.22.74           10.37.75         20.22.74           10.37.75         20.22.74           10.37.75         20.22.74           10.37.75         20.22.74           10.37.75         20.22.74           10.37.75         20.22.74           10.37.75         20.22.74           10.37.75   |
| 15%. Intell पर अगदेन गरे गा देशन पांउस्टरमार्गाखेंड्राज्यांके पर अगदेन गरे गा देशना राज करते हैं।<br>गराउंच जातकरी करनी की विद्याद गा ते करते हैं।<br>गराउंच जातकरी करनी की विद्याद गा ते करते हैं।<br>राज जातकरी करनी की विद्याद गा ते करते हैं।<br>करते पर प्रायंत करते करता है।<br>करते पर राज करते हैं।<br>पर प्रायंत करता गरा करते हैं।<br>पर प्रायंत करता है।<br>पर प्रायंत करते हैं।<br>पर प्रायंत करते हैं।<br>पर प्रायंत करता है।<br>पर प्रायंत करता करते हैं।<br>पर प्रायंत करता करते हैं।<br>पर प्रायंत करता करता है।<br>विद्यालय करता करते हैं।<br>पर प्रायंत करता करता है।<br>पर प्रायंत करता करता है।<br>पर प्रायंत करता करता है।<br>पर प्रायंत करता करता है।<br>पर प्रायंत करता करता है।<br>करता के क्रम प्रायंत करता करता है।<br>करता के क्रम प्रायंत करता करता करता है।<br>करता के क्रम प्रायंत करता करता करता करता करता करता करता करत   | estiplinated.com<br>innatic.com और<br>4 विश्वार्थ विशेष्ठ<br>होरण विशेष्ठ<br>होरण विशेष्ठ<br>हारण विशेष<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्थ<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार्य<br>स्वार   | (0) C<br>Notes:<br>1. The bit<br>2. Frod at<br>1. The bit<br>1.  | Nuled (R8)<br>ove Uraudied fra<br>14 February 2022<br>depicted U links<br>over the entradiance of the<br>depicted U links<br>over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links<br>over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links<br>over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links<br>over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links<br>over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links<br>over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links<br>over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links over it the entradiance of the entradiance of the<br>depicted U links over it the entradiance of   | 10.<br>rdal results web re<br>The module of the<br>the module of the module of the<br>the module of the module of the<br>the module of the module of the module of the<br>the mo   
   
   | .49         aviewed by the ancial measure is ancial measure is ancial measure is ancial measure is an or ancial measure is and Dackase in websites of the unan is and Dackase in websites of the image of the  | 9.13         Акай Солтай           Акай Солтай         На Солтай           Кай Солтай <td< td=""><td>34.66<br/>ee and appro-<br/>autore and a memory of the unmouth<br/>the unmouth Regulations of the unmouth<br/>Regulation Regulations of the unmouth<br/>recently, effective and the unmouth<br/>recently and the
unmouth<br/>r</td><td>20.64<br/>20.64<br/>20.64<br/>20.64<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20</td><td>17.92 ouriel of Directure<br/>odd 31 Decempoint<br/>of the State of Decempoint<br/>of the State of Decempoint<br/>of the State of Decempoint<br/>in and www.see<br/>half of Beard<br/>of Decempoint<br/>in and Manage<br/>of The State of Decempoint<br/>of The State of Decempoint<br/>(stries-state of Decempoint)<br/>(stries-state of Decempoint)<br/>(stries-stat</td><td>61.50 s at its meeting<br/>for 2021 here<br/>individualities in<br/>individualities in<br/>individualitie</td><td>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1</td><td>31 स्टिस्ट 2<br/>उसरेपास<br/>से<br/>प्रिया के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के<br/>प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के<br/>प्राप्त करवा के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के<br/>प्राप्त करवा के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के<br/>सार प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के<br/>सार प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के<br/>सार प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के<br/>सार प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के<br/>सार प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के<br/>सार प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के<br/>सार प्राप्त का प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त<br/>के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के<br/>के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के<br/>के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के<br/>सार प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त<br/>के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त<br/>के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त<br/>के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त<br/>के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त<br/>के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त<br/>के प्राप्त के प्राप्त<br/>के प्राप्त के के प्राप्त के प</td><td>228 25 26 27 27 27 28 28 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28</td><td></td><td>Fig.44         14           Vig.4         12           Vig.4         12     <td>10         even 4 £ so           even 4 £ so         even           even         even           3112 222         221           19 22         7.5 59           19 22         7.6 40           19 22         7.6 40           10 20 20         21.1 50           10 (160 53)         3.222 74           10 553         0.500           (160 53)         0.500           (150 202)         11.1 4           11 4 4446         11.1 4           11 4 4446         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           14 4 4000000000000000000000000000000000</td><td>e est acteur<br/>4 etter acteur<br/>1 3 111.2222<br/>2 309 7<br/>3 112.222<br/>2 309 7<br/>3 209 7<br/>3</td><td>cooldbar 4 gf           uncer di 1           uncer di 2           2           2           3           2           3           2           3           2           3           2           4           2           5           1           2           6           1           2           6           1           2           6           1           2           2           2           1           2           1           2           2           1           2           1           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2</td></td></td<> | 34.66<br>ee and appro-<br>autore and a memory of the unmouth<br>the unmouth Regulations of the unmouth<br>Regulation Regulations of the unmouth<br>recently, effective and the unmouth<br>recently and the unmouth<br>r   | 20.64<br>20.64<br>20.64<br>20.64<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20 | 17.92 ouriel of Directure<br>odd 31 Decempoint<br>of the State of Decempoint<br>of the State of
Decempoint<br>of the State of Decempoint<br>in and www.see<br>half of Beard<br>of Decempoint<br>in and Manage<br>of The State of Decempoint<br>of The State of Decempoint<br>(stries-state of Decempoint)<br>(stries-state of Decempoint)<br>(stries-stat  | 61.50 s at its meeting<br>for 2021 here<br>individualities in<br>individualities in<br>individualitie  | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1  | 31 स्टिस्ट 2<br>उसरेपास<br>से<br>प्रिया के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के<br>प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के<br>प्राप्त करवा के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के<br>प्राप्त करवा के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के<br>सार प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के<br>सार प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के<br>सार प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के<br>सार प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के<br>सार प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के<br>सार प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के<br>सार प्राप्त का प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त<br>के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के<br>के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के<br>के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के<br>सार प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त<br>के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त<br>के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त<br>के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त<br>के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त<br>के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त<br>के प्राप्त के प्राप्त<br>के प्राप्त के के प्राप्त के प   | 228 25 26 27 27 27 28 28 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28  |  | Fig.44         14           Vig.4         12           Vig.4         12 <td>10         even 4 £ so           even 4 £ so         even           even         even           3112 222         221           19 22         7.5 59           19 22         7.6 40           19 22         7.6 40           10 20 20         21.1 50           10 (160 53)         3.222 74           10 553         0.500           (160 53)         0.500           (150 202)         11.1 4           11 4 4446         11.1 4           11 4 4446         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20
11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           14 4 4000000000000000000000000000000000</td> <td>e est acteur<br/>4 etter acteur<br/>1 3 111.2222<br/>2 309 7<br/>3 112.222<br/>2 309 7<br/>3 209 7<br/>3</td> <td>cooldbar 4 gf           uncer di 1           uncer di 2           2           2           3           2           3           2           3           2           3           2           4           2           5           1           2           6           1           2           6           1           2           6           1           2           2           2           1           2           1           2           2           1           2           1           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2</td>  | 10         even 4 £ so           even 4 £ so         even           even         even           3112 222         221           19 22         7.5 59           19 22         7.6 40           19 22         7.6 40           10 20 20         21.1 50           10 (160 53)         3.222 74           10 553         0.500           (160 53)         0.500           (150 202)         11.1 4           11 4 4446         11.1 4           11 4 4446         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           12 20 20 11 1         11.1 4           14 4 4000000000000000000000000000000000  | e est acteur<br>4 etter acteur<br>1 3 111.2222<br>2 309 7<br>3 112.222<br>2 309 7<br>3 209 7<br>3 | cooldbar 4 gf           uncer di 1           uncer di 2           2           2           3           2           3           2           3           2           3           2           4           2           5           1           2           6           1           2           6           1           2           6           1           2           2           2           1           2           1           2           2           1           2           1           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2  |
| 152. http:// पर आगदेर गरे गा देशन पाउस्टरदात्रीखेंड्राज्यांग<br>पर्गलपार, 27 अपने, 2004 जर भे जा नज है।<br>प्राराज वात्राव्या सभी से विषयाद यागे भार के प्रेश सुरोध है या<br>एभार प्रदेश के प्रियाद प्रधान सभी के प्रेश सुरोध है या<br>एभार प्राराज के प्राराज के प्राराज के प्राराज के प्राराज के<br>प्राराज के प्राराज के प्राराज के प्राराज के प्राराज के<br>विकेन दूस रोग्म प्राराज निर्मित या भरेनी से scretarial<br>दिवेन दास रोगम की।<br>प्राराज के प्राराज के प्राराज के प्राराज के प्राराज<br>विकेन दास रोगम की।<br>विकार प्राराज<br>के प्राराज<br>के प्राराज<br>के प्राराज<br>विकार के प्राराज<br>के प्राराज के प्राराज के प्राराज<br>के प्राराज के प्राराज<br>के सावपालिक का प्राराज<br>के सावपाल का का का प्राराज<br>के सावपाल का का प्राराज<br>के सावपाल का का का का का<br>के सावपाल का का का का का का<br>के सावपाल का का का का का का<br>के सावपाल का का का का का का<br>के सावज का का का का का का<br>के सावज का का प्राराज<br>के सावज का का का का<br>के सावज का का का का का<br>के सावज का का का का का<br>के सावज का का का का का का का<br>के सावज का का का का का का का का का का<br>के सावज का का का का का का का का का का<br>के सावज का प्राराज<br>के सावज का  | estiplinated.com<br>innatic.com और<br>4 विश्वर विशेष्ट<br>होरण दिशिह्य<br>होरण दिशिह्य<br>हारण दिशिह्य<br>रहरा /-<br>विश्वर विशेष्ट<br>हरा /-<br>विश्वर विशेष्ट<br>रासविदास र<br>रासविदास र<br>रासविदास र<br>रासविदास र<br>रासविदास र<br>रासविदास र<br>विश्वर विशेष्ट<br>विश्वर विशेष्ट<br>विश्वर विशेष्ट<br>विश्वर विशेष्ट<br>विश्वर विशेष्ट<br>विश्वर विशेष्ट<br>विश्वर विशेष्ट<br>विश्वर विशेष्ट<br>विश्वर विशेष्ट<br>रासविदास र<br>रासविदास र<br>रासविदास र<br>विशेष्ट विशेष्ट<br>विशेष्ट विशेष्ट<br>विशेष्ट विशेष्ट<br>विशेष्ट विशेष्ट<br>विशेष्ट विशेष्ट<br>विशेष्ट विशेष्ट<br>विशेष्ट विशेष्ट<br>विशेष्ट विशेष्ट<br>विशेष्ट विशेष्ट<br>रासविदास र<br>रासविदास र<br>र<br>र<br>र<br>र<br>र<br>र<br>र<br>र<br>र<br>र<br>र<br>र<br>र<br>र<br>र<br>र<br>र<br>र   | (c) C<br>Notes:<br>1. The bit<br>2. Information<br>1. The bit<br>2. Information<br>2. Info   | Nuded (R8)<br>ove Unaudiaed fina<br>ove Unaudiaed fina<br>ove Unaudiaed State<br>(14 February 2022<br>unaudiaed United<br>over the performance<br>over the   | 10.       
   
   | .49         aviewed by the ancial measure is and Dactoaux is and Dactoaux is websites of the image of the im   | 9.13<br>Aud: Commit<br>to Hocards<br>I., नई वि<br>al.co.in<br>Bequinners<br>Block Exchange<br>(1997)<br>461.37<br>201.08<br>201.08<br>201.08<br>227.53   
   
   | 34.66 ee and appro-<br>ee and appro-<br>time would be an appro-<br>time would be appro-<br>research appro- | 20.64<br>20.64<br>20.64<br>20.64<br>20.65<br>20.65<br>20.776<br>20.776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.7776<br>20.77777<br>20.777777777777777777777777777777777777  | 17.92 ouriel of Directure<br>odd 31 Decempoint<br>of 18 Decempoint of the<br>method 31 Decempoint of the<br>method of the set of the<br>method of the<br>method of the set of the<br>method of the<br>method of the set of the<br>method of the<br>method of the set of the<br>method of th  | 61.50 a at its meeting for 2021 here information in the Unauditor in the U   |
1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1  | 31 स्टिस्ट 2<br>उसलेपास<br>प्रियान के प्रायस<br>प्रायस के प्रायस<br>के प्रायस के प्रायस<br>प्रायस के प्रायस के प्रायस<br>के प्रायस के प्रायस के प्रायस के प्रायस के प्रायस<br>के प्रायस के प्रायस के प्रायस के प्रायस के प्रायस<br>के प्रायस के प्रायस के प्रायस के प्रायस के प्रायस<br>के प्रायस के प्रायस के प्रायस के प्रायस के प्रायस के प्रायस<br>के प्रायस के प्रायस के प्रायस के प्रायस के प्रायस के प्रायस<br>के प्रायस के प्रायस के प्रायस के प्रायस के प्रायस के प्रायस<br>के प्रायस के प्रायस के प्रायस के प्रायस के प्रायस के प्रायस के प्रायस<br>के प्रायस के  | 222 03 03 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07   | series 642000     series 64200     series 6420     series  | Fig.44         14           Via 31         12           Via 11         12           Via 11<   
  | 1         Image: A E, and   | 1 08 x2000           1 0 000           1 11.1232           2 000           1 11.1232           2 000           1 11.1232           2 000           1 11.1232           2 000      <   | scooldbar 4 gf           unere di<br>3 Jusce 12           unere di<br>3 Jusce 12           gi Jusce 12           gi Jusce 12           Jack 12   |
| 15. humik पर सगरेत कर या देशेंग पाउस्तरमात्रीक्रिआधी पर पंगलेंगर, 27 अपने 28 का नगरे तो स्वाया र या नगरे हो। या गरे साम  | esipinancia.com और<br>innalic.com और<br>मैं विश्वार्थ विशेष्ठ<br>होवण विशेष्ठ<br>हावण विशेष्ठ<br>हावण विशेष्ठ<br>हहार/-<br>हिवार वेष<br>रासविद्यास र<br>टासविद्यास र<br>टासवार्थ विशेष र<br>टासवार्थ के के का का का का<br>रासविद्यास र<br>टासवार्थ के कि का का का का का<br>रासविद्यास र<br>टासवार्थ के कि का का का का का का<br>रासविद्यास र<br>टासवार्थ के का का का का का का का का<br>रासविद्यास र<br>टासवार्थ के का का का का का का का का का का<br>रासवार्थ के का  | (0) C<br>Notes:<br>1. The size<br>1.  | Nuldet (R8)           ove Uraudited france           14 February 2020           14 February 2020           Status (Second Second Seco   | 10.      
   
  | .49         .49           solensed by the design of the second results on outside second results on outside second results on outside second results of the lines and Declosers websites of the second results of the second reseco   | 9.13         Акай Солтай           Акай Солтай         На Солтай           Кай Солтай <td< td=""><td>34.66<br/>ee and appro-<br/>autore and a memory of the unmouth<br/>the unmouth Regulations of the unmouth<br/>Regulation Regulations of the unmouth<br/>recently, effective and the unmouth<br/>recently and the
unmouth<br/>r</td><td>20.64<br/>20.64<br/>20.64<br/>20.64<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.65<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20.55<br/>20</td><td>17.92 ouriel of Directure<br/>odd 31 Decempoint<br/>of the State of Decempoint<br/>of the State of Decempoint<br/>of the State of Decempoint<br/>in and www.see<br/>half of Beard<br/>of Decempoint<br/>in and Manage<br/>of The State of Decempoint<br/>of The State of Decempoint<br/>(stries-state of Decempoint)<br/>(stries-state of Decempoint)<br/>(stries-stat</td><td>61.50 a at its meeting<br/>for 2021 here<br/>individualities its<br/>individualities its<br/>individualits<br/>individualitits<br/>individualities its<br/>individualities its</td><td>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1</td><td>31 स्टिस्ट 2<br/>उस्प्रेरेस<br/>विक्र मिलन<br/>प्रकार के प्रकार के प्रकार<br/>के कि का कि<br/>के कि का कि का कि कि का कि कि</td><td>222 23 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27</td><td>series 642000 4<br/>series 100000 1<br/>100000 1<br/>10000000 1<br/>100000 1<br/>10000000000</td><td>Figler         14           Vigit off         14</td><td>1000         Inter 4 E. and           Inter 4 E. and         Inter 4 E. and           1715         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1713         1712           1714         1712           1715         1712           1714         1712           1715         1712           1714         1712           1715         1712           1715         1712           1715         1712           1715         1712           1715         1712     <td>1 ers active           1 = 0 erc           1 = 0 erc</td><td>continues of a general sector of the sector of th</td></td></td<>   | 34.66<br>ee and appro-<br>autore and a memory of the unmouth<br>the unmouth Regulations of the unmouth<br>Regulation Regulations of the unmouth<br>recently, effective and the unmouth<br>recently and the unmouth<br>r   | 20.64<br>20.64<br>20.64<br>20.64<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20 | 17.92 ouriel of Directure<br>odd 31 Decempoint<br>of the State of Decempoint<br>of the State of Decempoint<br>of the State of Decempoint<br>in and www.see<br>half of Beard<br>of Decempoint<br>in and Manage<br>of The State of Decempoint<br>of The State of Decempoint<br>(stries-state of Decempoint)<br>(stries-state of Decempoint)<br>(stries-stat  | 61.50 a at its meeting<br>for 2021 here<br>individualities its<br>individualities its<br>individualits<br>individualitits<br>individualities its<br>individualities its   
   | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1  | 31 स्टिस्ट 2<br>उस्प्रेरेस<br>विक्र मिलन<br>प्रकार के प्रकार के प्रकार<br>के कि का कि<br>के कि का कि का कि कि का कि  | 222 23 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27   | series 642000 4<br>series 100000 1<br>100000 1<br>10000000 1<br>100000 1<br>10000000000  | Figler         14           Vigit off         14  
   | 1000         Inter 4 E. and           Inter 4 E. and         Inter 4 E. and           1715         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1712         1712           1713         1712           1714         1712           1715         1712           1714         1712           1715         1712           1714         1712           1715         1712           1715         1712           1715         1712           1715         1712           1715         1712 <td>1 ers active           1 = 0 erc           1 = 0 erc</td> <td>continues of a general sector of the sector of th</td> | 1 ers active           1 = 0 erc  | continues of a general sector of the sector of th  |
| 15   | estiplinatic.com और<br>innatic.com और<br>innatic.com और<br>after विशेष्ठ विशेष्ठ<br>gifter विशेष्ठ<br>southwestpina-<br>ter and any any any any<br>faret da<br>transfer विशेष<br>रासविलास र<br>: cs@saica<br>11 दिसंबर 20<br>द्वापरीशित 1<br>: cs@saica<br>10.00 0.00<br>: fs29 - f568<br>- f6.87 - f568<br>- f688<br>- f6 | (0) C<br>Notes:<br>1. The air Mid or<br>bed or<br>bed or<br>bed or<br>bed or<br>content of the second<br>content of the second<br>co   | Nulded (R8)           ove Uraudided frances           14 February 2020           14 February 2020           reserve to the Second stream (Second Second Se   | 10.           ntda rasults were to           The module scalar were to           Status 2006           Status 2007           <   
   
  | .49         average day the analysis of analy   | 9.13<br>Audi Commit<br>to Mecarrely<br>Audi Commit<br>to Mecarrely<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements<br>Requirements   
   
   | 34.66 be and appro- be and app   | 20.64  | 17.92 orard of Direction odd 31 Decempoint odd 32 Decempoint odd 3   | 61.50 s at is meeting ther 7021 here for Auditors indiano sub india com and india com  | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1  | 31 स्टिस्ट 2<br>उसरेपास<br>स्व<br>प्रकार के प्रकार<br>प्रकार के प्रकार<br>के का सार<br>प्रकार के प्रकार<br>के का सार<br>प्रकार के प्रकार<br>के का सार<br>के का सार<br>कि सार<br>का सार<br>कि सार<br>का सार<br>कि सार<br>का का का<br>का सार<br>का का का<br>का का क  
  | 222 23 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27   |  | Figler         14           Viel of 1         12   
  | 1000         Rear R E. and           1000         Rear R E. and           1000         Rear R E. and           1010         Rear R E. and           1011         Rear R E. and           1012         Rear R R E. and           1012         Rear R R R R R R R R R R R R R R R R R R R   | ere avere      ere avere      ere  | continues or an english service  |
| 15   | estiplinatic com<br>sinual com और<br>4 किस्ता विमेटिव<br>वरिण विमेटिव<br>हरिण विमेटिव<br>हरिण विमेटिव<br>हरिण - काव्याप्र<br>सिंग्सा विमेटिव<br>स्वाप्र<br>सिंग्सा विमेटव<br>स्वाप्र<br>सिंग्सा विमेटव<br>सिंग्सा विमेटव<br>स्वाप्र<br>सिंग्सा विमेटव<br>सिंग्सा विमेटव<br>सिंगस   | (c) C<br>Notes:<br>1. The site<br>1. The site<br>1. The site<br>2. Reput<br>Place: (<br>Date: 1-<br>2. Reput<br>Place: C<br>Place: C   | Nulded (R8)           ove Uraudided frances           14 February 2020           14 February 2021           Status (R8)           ove Uraudide frances           in the setted           in th   | 10.           ned reading sees to the assume for the same sees to the same sees to the same sees to the distance Stock set t   
   
  | .49         averaged by the many interaction and instants in any interaction in any interaction in any interaction and interaction and interaction in websiles of the Uname and Disclose any interaction is websiles of the Uname and Disclose any interaction is websiles of the Uname and Disclose any interaction is websiles of the Uname and Disclose any interaction is averaged and interaction is averaged any interaction in any interaction any int   | 9.13<br>Audi Commit<br>in Mecanetic<br>IC TES<br>IC TE   
   
   | 34.66 be and appro- be and app   | 20.64<br>20.64<br>20.64<br>20.64<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20 | 17.92 ord of Directors deg 31 Decempond of 31  | 61.50 sait is meeting ther 2021 here ther Auditors site and the meeting ther fuel hauddes india com and (of Directors of D   | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1  |  
   | 222 23 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27   | प्रदेश के 2010 में 1<br>द परियासी<br>द परियासी<br>द परियासी<br>1940 2023<br>(का कि 2010 2011)<br>के 2012 2013<br>(का 2012 2013)<br>के 2012 2013<br>(का 2014)<br>(का | Figler         14           Verifield         16           Verifield         17           17         16           Verifield         17           17         16           Verifield         17           17         16           Verifield         17           16         16           Verifield         17           16         16           17         16           17         17           16         16           17         16           17         17           16         17           17         16           17         17           17         16           17         17           16         16           17         16           16         16           17         16   | 1000         Image A & and a            Image A & and a          Image A            Image A          <   
   | 1 08 x2000           1 311.2232           1 311.2232           1 311.2232           2 0 Joharnitä           723.023           2 0 27.52           2 27.52   | स्वाप्तिक व वा<br>साप्त की<br>प्राप्त की   |
| 15. humils 'पर सार्थेट सर या देशेंग पाउस्टरदाताओंड्रेअयील पर भाषालय, उस भाषा देशेंग पाउस्टरदाताओंड्रेअयील पर भाषालय सारगे की स्वायाद या जि मान सार्थ स्वाया प्रारंग पान की विषय प्रारंग के प्रारंग  | estiplinatic com<br>sinual com और<br>4 किस्ता विमेटिव<br>वरिण विमेटिव<br>हिसा विमेट<br>हिसा विमेट<br>हिमा विमेट  | (c) C<br>Notes:<br>1. The site<br>1. The site<br>1. The site<br>2. Reput<br>Place: (<br>Date: 1-<br>2. Reput<br>Place: C<br>Place: C   | Nulded (R8)           ove Uraudided frances           14 February 2020           14 February 2021           Status (R8)           ove Uraudide frances           in the setted           in th   | 10.           ned reading sees to the assume for the same sees to the same sees to the same sees to the distance Stock set t  
   
   | .49         averaged by the many interaction and instants in any interaction in any interaction in any interaction and interaction and interaction in websiles of the Uname and Disclose any interaction is websiles of the Uname and Disclose any interaction is websiles of the Uname and Disclose any interaction is websiles of the Uname and Disclose any interaction is averaged and interaction is averaged any interaction in any interaction any int   | 9.13<br>Audi Commit<br>in Mecanetic<br>IC TES<br>IC TE  
   
  | 34.66 be and appro- be and app   | 20.64  | 17.92 ound of Disedent of 31 Decem of 31 D   | 61.50 sait is meeting ther 7021 hore in for Audions indexpounder india com and india c   | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1  | 31 सिर्देश 2<br>उस्तेरिया<br>से सिंह के सिंह के सिंह का स्टे.<br>से सिंह के सिंह के सिंह का स्टे.<br>से से स्टे के सिंह के सिंह का स्टे.<br>से से स्टे के सिंह के सिंह का स्टे.<br>से से से से से सिंह के सिंह का स्टे.<br>से से स  | 222 23 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27  
  | series 642000     series 64200     series 6420     series     series 64200     series 64200     series 64200     series 6  | Figler         14           Viel H         15           Viel H         15           Viel H         15           Viel H         15           Viel H         17           Viel H<  | Compared and a second and   | 1 08 x2000           1 3 112.232           2 0 photorefit           1 3 112.232           2 1 3 12.232           2 1 3 12.232           3 12 12.232           3 12 12.232           3 12 12.232           3 12 12.232           3 12 12.232           3 12 12.232           3 12 12.232           3 12 12.232           3 12 12.232           3 12 12.232           3 12 12.232           3 12 12.332           3 1  
  | scooldbar et git           unere di<br>3 Jassi 22           gitterrithig           git   |
| 15. humik में रक्ष सार्थदा स्वार्थ स्वार्थ सारा कर है।<br>प्राप्त प्राप्त प्राप्त स्वार्थ सारा है।<br>प्राप्त प्राप्त कर सार सार्थ स्वार्थ सारा कर सार<br>(कार प्रस्त कर सारा सार्थ सारा सारा कर सारा सारा<br>(कार कर सारा सारा सारा सारा सारा सारा सार  | estiplinatic com<br>sinual com और<br>4 किस्ता विमेटिव<br>वरिण विमेटिव<br>हिसा विमेट<br>हिसा विमेट<br>हिमा विमेट  | (c) C<br>Notes:<br>1. The site<br>1. The site<br>1. The site<br>2. Top site<br>Place: (<br>Date: 1-<br>State<br>Place: C<br>Place: C<br>C<br>Place: C<br>C<br>Place: C<br>C<br>Place: C<br>C<br>Place: C<br>Place: C   | Nulded (R8)           ove Uraudided frances           14 February 2020           14 February 2021           Status (R8)           ove Uraudide frances           in the setted           in th   | 10.           ned reading sees to the assume for the same sees to the same sees to the same sees to the distance Stock set t   
   
  | .49         averaged by the many interaction and instants in any interaction in any interaction in any interaction and interaction and interaction in websiles of the Uname and Disclose any interaction is websiles of the Uname and Disclose any interaction is websiles of the Uname and Disclose any interaction is websiles of the Uname and Disclose any interaction is averaged and interaction is averaged any interaction in any interaction any int   | 9.13<br>Audi Commit<br>in Mecanetic<br>IC TES<br>IC TE   
   
   | 34.66 ae and appro- are and appro- a   | 20.64<br>20.64<br>20.64<br>20.64<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20 | 17.92 oracl of Direction odd 31 Decempoint odd 3   | 61.50 s at its meeting for 7021 here for 702   | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1  | 31 सिर्देश 2<br>उस्तेरिया<br>द<br>से सिरण<br>प्रियान से पायस<br>के का का<br>का का का का का का का का का<br>का का का का का का का का का का<br>का का का का का का का का का का का<br>का का का का का का का का का का का<br>का का का का का का का का का का का<br>का का का का का का का का का का<br>का का का का का का का का का का<br>का का का का का का का का का का<br>का का का का का का का का का का<br>का का का का का का का का का का का<br>का का का<br>का का का<br>का का का<br>का का का<br>का का का<br>का का का<br>का का क   | 222 23 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27  
  | series 642000     series 64200     series 6420     series     series 64200     series 64200     series 64200     series 6  | Figler         14           Viel H         15           Viel H         15           Viel H         15           Viel H         15           Viel H         17           Viel H<  | 100         Image A & and a f & an   
   | 1 08 x2000           1 311.2323           2 312.232           2 131.2323           2 131.2323           2 131.2323           2 131.2323           2 132.232   | continue a gi           uncer di 1           1           21.33.322           21.33.322           21.33.322           21.33.322           21.33.322           21.33.322           21.33.322           1.22.4 61           1.22.4 61           0.01.27.93           2.24.61           0.27.43           1.22.4 61           0.27.43           1.22.4 61           0.27.43           1.22.4 61           0.27.43           1.22.4 61           0.27.43           1.22.4 61           0.27.43           1.22.4 61           0.27.43           1.22.4 61           0.27.42           1.22.4 61           0.27.42           1.22.4 61           0.27.42           1.22.4 61           0.27.42           1.22.4 61           0.27.42           1.22.4 61           0.27.42           1.22.4 61           0.27.42           1.22.4 61           0.27.42           1.22.4 61           1.22.4 61  |
| 153.html पर सगदेद गरे गा दिना पाउल्यादीक्राल्यी पर पार्थवार 200 स्वर का स्वर्थ हों।<br>पार्थवार 200 स्वर का स्वर के पाउल्या हो आप स्वर सुर्वाध हो पार्थवा के सुर्वाध हो स्वर सुर्वाध हो पार्थवा के सुर्वाध हो पार्थवा हो स्वर सुर्वाध हो स्वर सुर्वाध हो सुर्वाध हो स्वर सुर्वाध हो सुर्व हो स  | estiplinatic com<br>sinual com और<br>4 किस्ता विमेटिव<br>वरिण विमेटिव<br>हिसा विमेट<br>हिसा विमेट<br>हिमा विमेट  | (c) C<br>Notes:<br>1. The site<br>1. The site<br>1. The site<br>2. Top site<br>Place: (<br>Date: 1-<br>State<br>Place: C<br>Place: C<br>C<br>Place: C<br>C<br>Place: C<br>C<br>Place: C<br>C<br>Place: C<br>Place: C   | Nulded (R8)           ove Uraudided frances           14 February 2020           14 February 2021           Status (R8)           ove Uraudide frances           in the setted           in th   | 10.           ned reading sees to the assume for the same sees to the same sees to the same sees to the distance Stock set t  
   
   | .49         averaged by the many interaction and instants in any interaction in any interaction in any interaction and interaction and interaction in websiles of the Uname and Disclose any interaction is websiles of the Uname and Disclose any interaction is websiles of the Uname and Disclose any interaction is websiles of the Uname and Disclose any interaction is averaged and interaction is averaged any interaction in any interaction any int   | 9.13<br>Audi Commit<br>in Mecanetic<br>IC TES<br>IC TE  
   
  | 34.66 ae and appro- are and appro- a   | 20.64<br>20.64<br>20.64<br>20.64<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.65<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20.55<br>20 | 17.92 and of Disedent of 31 Description of 31 De   | 61.50 s at its meeting for 7021 here for 702   | T         I           I         IIIIIIIIII           IV         VIVIX           XX         XX           XX | 31 सिर्देश 2<br>उसरेपास<br>से विश्व क्यांक<br>प्रकार के प्रकार के क्यांक<br>के का का<br>के का का<br>का का का<br>के का का<br>का का का का<br>का का का का<br>का का का का<br>का का का<br>का का का का का का का का<br>का का का<br>का का का का का का का का का<br>का का का<br>का का क   | 222 23 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27   | control 642000     control 64200     control 64200     control 6420  
           | Figler         14           Viel of 1         12  | control of the second sec  | ex activity           1         9           2         10           2         10           2         10           2         10           2         10           2         10           2         10           2         10           2         10           2         10           2         10           2         10           2         10           2         10           2         10           2         10           2         10           2         10           3         10           3         10           3         10           3         10           3         10           3         10           3         10           3         10           3         10           3         10           3         10           3         10           3         10           3         10           3         10           3 <td>southbar 4 eff           unree of<br/>2 13,33,222           2 13,33,222           2 13,33,222           2 13,33,222           2 13,33,222           1 24,456           1 22,24,67           1 22,24,67           1 22,24,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,225,07           1 1,225,07           1 1,225,07           1 1,225,07           1 1,225,07           1 1,225,07           1 1,225,07           1 1,225,07           1 1,225,07           1 1,225,07           1 1,225,07           1 1,225,07           1 1,225,07           1 1,225,07      <tr< td=""></tr<></td>   | southbar 4 eff           unree of<br>2 13,33,222           2 13,33,222           2 13,33,222           2 13,33,222           2 13,33,222           1 24,456           1 22,24,67           1 22,24,67           1 22,24,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67 
         1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,222,67           1 1,225,07           1 1,225,07           1 1,225,07           1 1,225,07           1 1,225,07           1 1,225,07           1 1,225,07           1 1,225,07           1 1,225,07           1 1,225,07           1 1,225,07           1 1,225,07           1 1,225,07           1 1,225,07 <tr< td=""></tr<>  |